## THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Regd. Office: G-1, Ground Floor, Nirmal Nest CHSL, Vayu Devta Mandir Complex, Borivali (W), Mumbai 400103

Tel: +91 22 67476080 CIN: L31100MH1936PLC002497

E-mail: milan@cifco.in

August 12, 2022

The Secretary, Bombay Stock Exchange Limited, 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 501622

## Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/ Madam

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice published in the Newspapers viz. - "The Free Press Journal" (English) and "Navshakti" (Marathi) viz.- May 11, 2022, informing about the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30-06-2022.

You are requested to take note of the same.

Thank you.

Yours faithfully For Amalgamated Electricity Company Limited

Milan Dalal Director DIN: 00062453

Encl: As Above

## मुंबई, गुरुवार, ११ ऑगस्ट २०२२ | **नव®शक्ति** १५

					मुंबई, गुरुवार, ११ ऑगस्ट २०२२   <b>नव</b> ®शक्ति
SARTHAK GLOBAL LIMITED	SERVOTEACH Regd. Office : 502 Triveni Krupa	HINDUSTRIES LIMI	ITED		दि झोरोस्ट्रिअन को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लि.
CIN : 19999914/1985PLC136335 Regd. Office: 609, Floor-6, West Wing, Tolstan (Clambers, Nariman Point, Mumbai, (MH) 400021, India, Contact No:: 9827522189, Email: <u>sal@sarthakclobal.com</u> , website: <u>www.sarthakqlobal.com</u>	Borivali - East, Mumbai - 4 CIN - L28	00 066. Email: Info@servotech 933MH1994PLC081857	-india.com		() दि झारास्ट्रअन को - आपरटोव्ह वक लि. आगेरेट आपिस: निर्वेश राज्य अवता, इ. अनी वेझर तर, वरवी, मुंबई ४००७३०.
Extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022 (Rs in Lacs)	Statement of Un-audited Res		(	₹ In Lakhs)	दुः: ६१३२ ३६०० ईमेलः zcbl@zcbLin नियम ८(१)  कब्जा सूचना
Sr.         Quarter Ended         Year Ended           No.         Particulars         30.06.2022         31.03.2022         30.05.2021         31.03.2022	S. Particulars No (Refer Note Below)		30.06.2021 3		ज्याभावी, निवन्स्यासमीकल हे दि झोगोस्ट्रेजन को-अपिटेटील बेक निविदेद, सल्टिस्टेट सेवपुल को आंग बेक, ज्यांस करिंट शाजिम विस्तीन साइसर, ५ या सब्ह्या, डॉ. अंनी सहंदर रोड, वाय्ठी, मुंबई ४०००३० वे प्रापिक्त अभिकारी या नाप्याने दिसरस्रीरणक्षरण ५
(Refer Notes Below)         Un-Audited         Audited         Audited           1.         Total Income from Operations         11.58         12.35         88.28         497.76	1 Total income from operations 2 Net Profit/(Loss) for the period (bet	Unaudited 11.51 fore Tax,	unaudited -	Audited -	रितन्त्रवान अभि वायलनिप्रास अंसर्य अंद एव्यंसॅन्ट अंक सिब्बुरोटी इरोस्ट अंग्र, २००२ (अ. ५६ सम. २००२) (सारक्षेता अ अन्यवे आणि कलव १३(१२) महवाबत सिस्तुरिटी इरोटर (एव्येलेसेंट) रूस, २००२ रका दिवस १ अन्यवे साणनी सूचना निर्णतिक ज् दुर्वीस कर्द्रोणना मुब्देन वर्ष्ट्र स्वार्थी पालरेड करपाल स्वरा मुब्दा आपीजा ताराउठ्या २० हिडस्तम करण्यात साणवा
2. Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 2.95 -421.86 3.48 -413.27	Exceptional and/or Extraordinary It 3 Net Profit/(Loss) for the period before	tems) (0.48) ore Tax	(1.82)	(8.58)	सेशः एकमेची प्रतर्भेड फाण्यात कर्जराः अग्रमर्थ ठान्याते, चाहाः कर्जराः आणि सर्वताचाण्य करतेताः मूखतः देण्यात वत निम्म्भवाष्ट्रश्रिकारी वेथे यात्ती वर्षनं करेत्या विश्वकतीयां कडात्रा अंट अंतटच्या कराम १३(४) सरवाचताः सन् रूमसच्या ८ अन्यवं प्र अधिकारणा यात्र प्रतर २८ व्यालयः २०३४ नी कि गोला
3.         Net Profit/(Loss) for the period before tax         2.95         -421.86         3.48         -413.27           (after Exceptional and/or Extraordinary items)         4         -413.27         -421.86         2.95         -421.86         2.95         -413.27           (after Exceptional and/or Extraordinary items)         - <td< td=""><td>4 (after Exceptional and/or Extraordii 4 Net Profit/(Loss) for the period after (after Exceptional and/or Extraordii</td><td>nary Items) (0.48) er Tax</td><td>(1.82)</td><td>(8.58) (8.58)</td><td>বিয়াগন: কাৰ্বদ্য আতি মৰ্বনোধানৰ এননলনা মাহুৰ মোদা ইত্যান বলা কী, চক বিজ্ঞানগায়া নকৰেমে কম নৰ ৭ মনে মিজমনোধা উত কালনাদী কৰবমায়ে হি হাইটেই-মন কী-আঁঘটোজ বঁচ নিৰ্দিটছালন বঁটা মন্ত্ৰ ৪০ ৫ ২০২২ চোৱাম হয়ম ৪ ৬ ৬৬.২২০ ৬২০ ৫ জন</td></td<>	4 (after Exceptional and/or Extraordii 4 Net Profit/(Loss) for the period after (after Exceptional and/or Extraordii	nary Items) (0.48) er Tax	(1.82)	(8.58) (8.58)	বিয়াগন: কাৰ্বদ্য আতি মৰ্বনোধানৰ এননলনা মাহুৰ মোদা ইত্যান বলা কী, চক বিজ্ঞানগায়া নকৰেমে কম নৰ ৭ মনে মিজমনোধা উত কালনাদী কৰবমায়ে হি হাইটেই-মন কী-আঁঘটোজ বঁচ নিৰ্দিটছালন বঁটা মন্ত্ৰ ৪০ ৫ ২০২২ চোৱাম হয়ম ৪ ৬ ৬৬.২২০ ৬২০ ৫ জন
(after Exceptional and/or Extraordinary items)     Total Comprehensive income for the period     (Comprehensive income for the period (after tax) and     (Comprehensive Profile(Loss) for the enerod (after tax) and	5 Total Comprehensive Income for the [Comprising Profit/(Loss) for the perio	boneq er	(1.82)	(8.58)	च्यात्र आणि स्थानील इन इभारच्या आराज्यपैन समेल कर्तद्रार मन्द्र-कर्त्रन्टार/ मिन्द्रप्रकारी ये उर्जन माराणी सुरुदेवधील प्रतियार प्रति यात्र
Other Comprehensive Income (after tax)) 6. Equity share capital 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	and other Comprehensive Income 6 Equity Share capital	(after tax)] - 422.96	422.96	422.96	<ol> <li>म. श्रीजी आंधआरल्म (कर्त्तद्वर) श्री इदव सुरेंद्र चंद्राना आणि श्री चलन सुरंद्र चंद्राना याच्या ७९.०५ २०२२</li> </ol>
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audind Balance Sheet of the previous year	7 Reserve (excluding Revaluation Re as shown in the Audited Balance S Previous Year	eserve) Sheet of			े पीलम्प में उठव मुंहेर बाइना ना नावे साम्राज ३ २००, रा मतला प्रावसान विज्ञास्त्रम । २, ०,००० २८ २९ २७ २ भी चेरन मुंहे चड़रना (प्रयोधा) को-अपिटेडीक सीमा प्रदे तिमिटेड, प्रेसमस राइन्द्रिअल ३. सी. मिस्रा डरव मंडला (स्वीधय) हस्टेर, चेल्ड सेड. लाइन डरवर, आदेश्वर्या (पूर्ट), जांचवार्यात्रा साम्र व्यास्त
(for continuing and discontinued operations)* Basic: 0.07 -14.06 -0.08 -13.77	8 Earning per share (of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued or				भ. थी. उदय सुदेद चंड्रला आणि सुंबई ४२०० ०६०, गोजमाणि अंदाजे १,३९९,०० जी.इ. हा यह यहत्रे प्रवतीत थी. चेतन सुदेद चंड्रला, के. सुदेद वी चदरना वी.पु.ई.ए
Diluted:         0.07         -14.06         -0.08         -13.77           * EPS is not annusized for the quarter ended 30° June, 2022 and quarter ended 30° June, 2021         -0.08         -13.77	a) Basic b) Diluted	(0.00) (0.00)	(0.00) (0.00)	(0.02) (0.02)	राव कावदेवीर सास (श्वीदा) दिवाक ऑग्टर ११, ३०३३ उपयिक्त जीग्द
<ol> <li>The above Avolder Financial Results for the quarter and year ended 30 65 2022 were reviewed and recommended by the Avolt Committee in its meeting held on August 10, 2022 and thereafter approved and taken on record by the Board of Direction a their meeting held on same date.</li> <li>The figures for the quarter ended 31 March, 2022 are the heading figures between added figures in respect of the fill financial year and the published</li> </ol>	Note: The above is an extract of the detailed with the Bombay Stock Exchange under	format of Quarterly / Annu	ual Financial R	esults filed	दिसङ ऑप्टि ११, २०२३ ज्योपहुल ऑफि स्टब्स मुखं हि झारास्ट्रिअन का-ऑपस्टोक्ड बंक वि
year to date figures upto 3 <sup>+</sup> quarter of the financial year ended 3 <sup>+</sup> March, 2022. Also, the figure upto a the upto of the initial carge water ended and not subjected to audit. The Compary is engaged in two businesses i.e. Trading of Commodities and Share Transfer Agent.	disclosure requirements) Regulations. Financial Results are available on the v	. 2015. The full format website of the Bombay Sto	of the Quart	erly/Annual	
Previous period/year figures have been regrouped registrated with environce as on an environmentation of the interview of the environce as on a single here comparately with current periods/ear figures.     The above financial results are available on Company's website <u>wave antihisididation</u> and also on the website OBSE     The above financial results have been prepared in a socialment with individual accounting Standards. (Indi-AS) as prescribes under section 133 of the     The above financial results have been prepared in a socialment with individual accounting Standards. (Indi-AS) as prescribes under section 133 of the	filing - BSE: www.bseindia.com/ Compa	iny Website - www.servote	echengg.in. By order o	f the Board	युनी ॲबेक्स अलॉय प्रॉडक्टस् लि. (मंग्रावर क्र. एत्राक्षरकार्यालामेककरः)
<ul> <li>In a socie function resolution for the program in accordance with mouth Accounting Subratarias (intro-5) as prescribed under Station 13.5 of the Companies Act. 2013 read with the Rides made thereunder, as may be amended from time to time</li> <li>For &amp; on Behalf of Board of Directors</li> <li>Sarthas Global Limited Shull cancerda</li> </ul>	Place: Mumbai	For Servot	teach Industri	Sd/-	गरेलांकून कर्षालय, नियरी विरुच, आर्थ दिवरणा वत्स्यती सार्ग, वर्ष्ट्र-२००० २०० ई-वस्य व्यायक्रपुरुष्टत्व्याक्रय एवंच २३२-२३२३ ३२३३ ३० जुन, २०२२ रोजी समयलेली निमाहीकर्तरता विश्वाेच विषक्षयांचा उतारा
Date: 10-08-2022 VMole-time Director Place: Indore Director DIN: 00169221	Date : 10/08/2022	Managing	Radhesh Director (DIN-	yam Lahoti 00755363)	(₹ साम्यान, प्रति जेभा घामे सोड्
2))					अ, तप्रणील मंपालेनी तिमाही स्पलेनी तमा क बुक कर रजरर ३१ का रजरे ३० कर रजरर
					(आवचायरीधित) (अवचायरीधित) (अवचायरीधित) १ प्रवर्तनानून एकुल उत्पन्न १ रवर्तनानून एकुल उत्पन्न
क्रिएटिव्ह आय लिमिटेड	METROGLOBAL LIMIT		I, 1ST FLOOR, MA SHWAR TEMPLE ST), MUMBAI-40	NGAL DISHA. ,6TH ROAD, 10052	<ul> <li>कारामगीमाठी प्रिन्मक नका/(न/ट) (क), अपराशसक आगि/विका अव्यक्तप्राण प्रार्थपूर्ण)</li> <li>के स्वत्यप्रीमाठी स्वयुं किसक नका/(न/ट)) अपराशन्त्रक</li> </ul>
(सीआवएन) एल१९९९९एमएच२९८६पीएलसी१२५५२१) मोट्मीकत कार्यातय ⊨ केलचा प्लाझा, प्लॉट क्र. १२-ए. न्य लिंक रोड. अप्रेरी (प) संबर्ध – ४०००५३	CIN NO: L21010MH1992PLC06 Extract of Unaudited Financial result	9021 Email: nitin.	shah@metroglo	une, 2022	आणि/किंगा अनन्दसाधाण वार्वनिंगः) ३३८.८९ १६९२.५९ ३२५.३ ४ कालावर्धसाठी करोलर निष्यळ नसा/(जेठा) (अपवादात्मक
फीज २९८३ २९१३ (१९) (७ लईस), सेला २९८३ २२ ९६, वे साईट, sww.costakeaya.com, सिंग: contact@crastweya.com ३० जून, २०२२ रोजी संपर्वली सिमाड़ी आणी व्यर्षकोर्ता आ लंखापरिक्रित विभी य निष्कर्माचा उतारा		Standalone Consolidated Unaudited Unaudited	(Rs in lacs e Standalone	Consolidated	आणि (किंवा अनन्यसाधारण बाबीनतर) २५३.७५ १९२९.७५ २१६.१ ५ कालवर्धीसाठी एकूल मर्यसम्प्रेयात्र उत्प्रज्ञ (कालावर्धीसाठी
(¥. eterato)	Sf. Particulars No.		Previous Year ending ad 31st March,2022		नफ/(नोट) (क्रसेनर) आणि इतर सर्वस्थावेशक उत्पत्न (वसीतर) महत्व) २२६ र २२६ २० २२६ र
90. 05. 2022 \$1.03.2022 \$0.05.2022 \$2.03.2025 3024203011168n eitunutrikan seedensiitikan eetunutrikan	Total Income     Net Profit (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,491 00 4,491 00 541 50 540.82	25 477 80	25 478 32	ি মন্দ্রমান মহেল। দ্বাদীয়া স্বাধিকে মন্দ্রমান সম্প্রদান হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত (মুন্দুর্বেদ্রিক মন্দ্রার আনুরু মন্দ্রির মন্দ্রমান সম্প্রদান হারে হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত স্বাধিক মন্দ্রমান সম্প্রদান সম্প্রদান সম্প্রদান হারে হারে হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত হিচেপ্ত
<u>২ গ্ৰহণনাৰ বছৰ সময় – ৫৫.০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২০০০ ২৫৫.৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ ২৫৫ </u>	Exceptional and/or Extraordinary items)     Net Profit / (Loss) for the period before tax     (after Exceptional and/or Extraordinary items)     A Net Profit / (Loss) for the period after tax	541.50 540.82 541.50 540.82	1,591 56 1,591 56	1,591 22 1,591 22	<ul> <li>द्रति समधाग प्राप्ती (प्रत्येकी म. १७/ - चे) (अखींहत आणि खहित आपका जासरजे)</li> </ul>
३ বল্টু বাগামনীদলৈ নিতত্র কা/(বঁত) (अध्यादावक आणि/फिङ अन्यसायला वावी २६.९० (२७.१७) (३७.६८) (८९.९८) प्रच्यात)	(after Exceptional and/or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period	429.99 429,31	1,183 71	1,183.37	१ मुलामून २. सोव्यिकृत १२ ८५ ६२ २७ १८ ९४
ে বিদেশনা মনাগ্ৰহীয়া নিজৰ কয়/(গাঁহ) ( এনায়ায়াক আমি কিন্তা এবন হি.২৬) ( ২৯.৬৬) ( ২৯.৬৬) ( ২৯.৬২) ( ২৫.২২) ( 24.22)	(after tax) and Other Compretiensive Income (after tax)	1 12 0 44	2.756 28	2 755 93	• সম্পর্যন Zhan চা বিষয়া ২ রমনী সমিবিষয়, ২০২০ আ কলত ২৫৫ সলগা বিসিদ্ধ কালনার ,৫৫ গাল। অন্য, ২০০০, সলগান সমিদ্রান রাইয়ে
अगीर इतर मर्वसमर्थरक उतरात्र (अन्यरमात्र) समाविष्ट) ६ भरताः हातेले सम्भाग भाइब्रस्त	6 Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each) 7 Earnings Per Share (of Rs.10/- each)	1.23,34,375 1,23,34,375	1.23,34.375	1 23,34 375	अन्द्रश्चेत्रदेश स्टेश्डइम (इड १९४२) अनगेन गणन आणि पापन नत्नानुसार ननविगधान आल आह, आणि न सबी, तिग्रिया आफ्रियाद भण्ड, डिस्पलोजा, रिकायमंग्रेया), गण्डसङ्ग्रस, २०४५ (संधाणेनुसार), त्या रंग्युसंडाग, ३३, त्या, साहाविवरण, आणि, डिपलो
<ul> <li>मागीन लोग वर्षाच्या ताडेबेदरम्या पुर्व्युत्वाविक राष्ट्रांत वयत्रद्र राष्ट्रीव</li> <li>प्रति सम्प्राण प्राप्ते (६.५/- प्रत्येकी) (अद्यदेश आणि छडीत परिवालगबरीता)</li> </ul>	(Including Other comprehensive income) Basic Diluted	0.01 0.00	22 35 22 35	22 31 22 31	ामरक्तण्यः प्रभुराशनात् आतंत २. बरील विसीच निष्कर्षे ३. ऑग्स्ट, २२ २२ रोडी झालेल्या त्याच्या सर्वाप्त स्थेत स्थेत संख्यादेश्वम सर्वतांद्रा पूर्वावेश्वमेत्र करण्यात आ अपि में मेंगलक महराजाक विजयान मण्यातः आतं आतंत्र त्याचत्वा त्यापात्र महराद्रायां संदूर काय्या आतं
- मुलमु :	Note: (a) The above is an extract of the detailed format of Out	parterly Financial Results field with the	e Stock Exchanges	oder Des Jeries	३ व्यासकावाच स्वरूप आणि प्रचालन नियव्योग कपनीचे मुख्य प्रचालन निर्णय अधिकारी पाहतात ते विचारात यंद्रन कपनी क निष्कर्यांग्रेत आली ओहे की, इंड-एएस १०८ "प्रचालन विधाग" प्रमाले केवळ एकच प्रचालन विधाग आहे, त्यानुसार वेगळी विधाग
रियाः १. मेथी (निस्टिंग अँग्ढ अन्द्र डिसन्सोय, रिक्वयमेंटस) रेयुलेक्स २७१५ च्या रेयुलेक्य ३३ अंतर्गत स्टॉक एयसचे सेमजदे राखल केलेल्या तिसाही वित्तीव	33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirem available on the website of RSE Limited wave branding	ients) Regulations, 2015. The full forma	at of the Quarterly Fina	ncial Results are	माहिनी दिलेली कर्म. ४. मामील कालारफो/क्योंकी आफडेवसी ही चानू कालावधी/वर्षांच्या आफडेवासेकी सर्प्यत होण्डसाठी पुर्वाठीत/पुर्साचित करण्य आले आहे
निष्कर्षाच्या त्यदितनगर किरलाबा वरील एक उतारा आहे. तिपाही विरोध निकारी मधूर्ग विवरण स्टॉक एक्सवेजपी वेबलाईट (www.bseindia.com आणि www.nseindia.com) पर आणि कंपनीची वेषसाईट (www.creativeeye.com) पर उपलच्या आहे.	(b) These financial results have been prepared in socorca companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (c) Previous period figures have been regrouped / rearrang (d) The above results have been reviewed by the Audi	ged whenever necessary for companiso it committee and approximately the Re-	in purposes	to provide a bold	५. चरील माहिती न्हणज्ञ सेवी (तिर्हारीण अंड अदर डिस्टलांजा दिश्वाचायेटस्) रेप्टुर्णजन्ता, २०१५ च्या रखुतंत्रात ३३ अतर्गत स्ट्रा 'एसमर्थे प्रमन्ध्र माहर केलेल्या वित्तीव निकर्षाच्या तनहित्तवार विवरणाचा एक उत्तार आहे, कंप्रजीच्या वित्तीव निकर्कांचे सपूर्ण विवा
किएटिन्ट आय लिमिटेड कारिता सही/-	on August 10, 2022. The standalone and consolidated r	results of the Company have been revie	wed by the Statutory A & on behalf of Boar	d of Directors,	ज्यनीची ववागईर www.unabwr.com न स्वाच्य्याणे बीएसई मि. ची वेबागईर www.bwendu.com वर उसलप्रा आरे यूनी प्रविवस असांच प्राइंकरस लिमिटेइसा महीत
(पीरत कुमा) दिसंक : to.oc.?o?? टिकाग: मुंबई मोसायक: cortextant	Place: Ahmedabad Date: 10/08/2022			Sd/- autam M Jain DIN: 00160167	एक डी नेटेरपाल ठिकाण : मुंबई
			Chairman & Man	aging Director	हिरवीय : ०० अगेगर, ३०३२ री आयएन ००००८३३
REMI EDELSTAHL TUBULARS LIMITED Regd. Office : Remi House, Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (Least), Mumbai-400 063	ruction of my client Mrs. Shakuntala				
CIN : L28920MH1970PLC014746 Which known as "MEGHA" which chan when society register vide Reg No. BC	iged as a Shree Hari Megha CHS Ltd.				
Extract of standatione Unaudited Financial Hesults (Provisional) for the quarter ended 30th June, 2022 [Sk.] Particulars Quarter Ven Quarter Ven Registra Pandravide St. No 71 Vione Standard Vione Stand	hkarlalii lain which is registered before				ADITYA BIRLA
No. ended ended ended Smt. Varjubai Shankarlaji Jain expired heirs as below; 1) Mr. Sampatal S. Jain	on 13/10/1998 leaving behind legal				
(Unaudited) (Audited) (Unaudited) Jain 7) Mr. Ashok S. Jain 8) Smt. Pust					
A Net Profit / (Loss) for the period (before 20.21 207.44 16.71 Tax and Exceptional items)     A net Profit / Loss for the period (before 20.21 207.44 16.71 Tax and Exceptional items)					HINDALCO
Tax (after Exceptional items) 2004 on dated 29/3/2004. As per this Di all balance dues/arrags of said bat 1	966. Document Sr No VDR6-02941- eed SmI Shakuntla Hastimal Jain paid 06-C to Bank of India and above said				
5 Total Comprehensive Income for the 15.06 51.22 12.00 Hastimal Jain. Now said property tran	ister in the name of Mrs. Shakuntala				CO INDUSTRIES LIMITED
period (Comprising Profit//Loss) for the period (after tax) and Other Device (Comparison of the comparison of the comp	n.	Tel No. 6	gd. Office : Ah 6691 7000 Fax	No. 6691 700	1 <sup>14</sup> Floor, B - Wing, Mahakali Caves Road, Andhen (East), Mumbai 400 093 2011   Email: hindaico@gadiyabirla.com   CIN Ne.; L27020MH1958PLC011238 Sile: www.hindaico.com & www.adiyabirla.com
Comprehensive income (after tax)         1,098.24         1,098.24         1,098.24         1,098.24           6         Equity Share Capital         1,098.24         1,098.24         1,098.24         1,098.24           7         Reserves         (cxtuding Revaluation)         Revaluation         Reserves         (cxtuding Revaluation)	Road No.9, Borivali (E) bearing C.T. TPS 2 final Plot No. 30B of city survey	and an all the second	EXTRA	COLOR DE LA COL	
Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year 3,112.09 If Any person having any claim, share, referred property by way of sale, Exch	title or each in research of the st		FINANCI	AL RESU	ILTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022
31.03.2022         Nulmitten, interfance, possession, let           8         Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)           (tor. conflueng, and discontinued)         demand to have been waved and (or able)	m in writing to me undersigned here of the claim of such nerson/s, if any will	Particulars			(₹ in Crore, except otherwise stated) Quarter Ended Year Ended
operations) -         Dated : 11 08 2022           1. Basic         0,14         0,58         0.12         Shop No.13, Janata Mark	Adv. Ashok P. Gaykar (et-2, Near Nerul Bus Depot, Nerul (E),				30/06/2022 31/03/2022 30/06/2021 31/03/2022
NOTE : The above is an extract of the detailed format of Quarterly	fumbai-400706. Mob. No. 9820217195	1. Revenue from Oper			(Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (Audited)           58.018         55.764         41.358         1.95.059
Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The spint of Mumbai	जाहीर सूचना	2. Profit/ (Loss) before 3. Profit/ (Loss) before	Tax		6,047 5,032 3,977 18,992 6,088 4,781 4,553 10,574
Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company is now 93 years old!	(सोसंग्वटीच्या भांडवल/ मिळकतीमधील मयत			ntinuing One	
	सभासदाने शेअसं आणि हितसंबंधाच्या	<ol> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Profit/ (Loss) for the</li> </ol>	Period from Di	scontinued O	erations 4,119 3,860 3,254 14,201
On Behalf of Board of Directors Sal- Mumbai (Rishabh R. Saral) DIPP DIPPO INTENAT	हस्तातरणासाठी दावे किंवा हरकती मागविणाऱ्या मूचनेचे प्रपन्न)	<ol> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Total Comprehensiv</li> </ol>	Period from Di Period /e Income/ (Los	scontinued O	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 Dperations . (9) (467) (471) 4,119 3,855 2,787 13,730 riod 10,484 1,053 2,946 12,582
On Behalf of Board of Directors Sd/-	हस्तोत्वरणसाठी दांवे किंता हरकती मागविणाच्या मुचयेचे प्रयत्र) (उपनिर्धा क्रम्साव प्रोट्टी, जय शास्त्री नगर को- आपरेट्रिक सीमेंग मोमावटी हि , ज्यादा पत्त देवे आपरेट्रिक सीमेंग मोमावटी हि , ज्यादा पत्त देवे	<ol> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Total Comprehensiv</li> <li>Paid-up Equity Shar (Face value ₹ 1/- pe</li> </ol>	Period from Di Period /e Income/ (Los re Capital (Net a	scontinued O	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 Deparations 4,119 3,860 (467) (477) 4,119 3,851 2,787 13,730 riod 10,484 1,053 2,946 12,582 Phares) 222 222 223 222
On Behalf of Board of Directors Sd. Mumbai August 10, 2022 (Rishabh R. Saraf) FREE PRESS JOURNAL	सन्तावायामाठी दावे किंवा हरकठी मालचित्राच्या मुपयेचे प्रदाश (अधिभि क्र. ३४, अंतर्गतृ) सौ. सुपक्षी जगज्ञाव ठोट्टी, जय शास्त्री नगर को- अधिदिक्ष मेनिंग नगेगवटी हि. ,ज्यावा एक देवे जो जी एस. रोड, म्यूस मेन्द्रज, मुपई ४०००२२ व. समास्य 5 आजि सदय सोसवाटरिका	<ol> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Profit/ (Loss) for the</li> <li>Total Comprehensive</li> <li>Paid-up Equity Shar (Face value ₹ 1/- pe</li> <li>Other Equity</li> <li>Earnings Per Share</li> </ol>	Period from Di Period ve Income/ (Los re Capital (Net er share)	scontinued O	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 )operations - (9) (467) (471) riod 10,484 1,053 2,946 12,582 (harres) 222 222 223 222 88,447 77,969 69,229 77,969
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 Managing Director Www.freepressjournal.in	इस्तोवराधान्ती यां विंवा हरकनी मानविशाका प्रश्नित्री छ. १४ अंतर्गत्र] सी मुप्पत्री तरावा त्रेतूरे, जद ताली क्या हो- सोवरिक सीले-नापाली लि., ज्यापत क्या के सी स्वीर हे. सुराह सर्वाटन, पूर्व २००००२ के मान्मस, आतं सारा सोवराष्ट्रीया विविधीमर्थल २ग्या मदरप्रवादित्रि इति प्र.	<ol> <li>Profi/l (Loss) for the</li> <li>Profi/l (Loss) for the</li> <li>Profi/l (Loss) for the</li> <li>Total Comprehensiv</li> <li>Paid-up Equity Shan</li> <li>(Face value ₹ 1/- pe</li> <li>Other Equity</li> <li>Earnings Per Share</li> <li>Basic - Continuing C</li> <li>Diluted - Continuing C</li> </ol>	Period from Di Period ve Income/ (Los re Capital (Net er share) Derations (₹) 1 Operations (₹)	scontinued O s) for the Peri of Treasury St	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 )perations 4,119 3,851 2,767 13,730 iriod 10,484 1.053 2,946 17,582 hares) 222 222 223 222 88,447 77.969 69,229 77.969 18.52 17.35 14,63 63,85 18.50 17.34 14,61 63,77
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 (Rishabh R, Sarat) Managing Director Www.freepressjournal.in THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Red. Offer G. Grand Flor Nord Net CIS. You Decider come Data to a contract of the contract of	तातातातालां दे दोर्ग किंग् स्टब्स् ने आनिवान्स पुरुष के प्रायो (प्रशिवि क्र. १४ अंतर्ग) से प्रायोग उपाया के द्विते, तत्र प्राती तास सा- अविदिक सीता के प्राया हुने, तत्र प्राया पत्र- से के सित के दिन्म प्राया कर साम्या कर से कार्या के प्राया के प्राया कर से कार्या कर आती तरहा सामया कर (१४ सीत कर १८ १८ (२) सा प्रायाता क (१४ सीत कर १८ १८ (२) सामया क (१४ सीत कर १८ १८ (२))	<ol> <li>Profif (Loss) for the</li> <li>Profif (Loss) for the</li> <li>Profif (Loss) for the</li> <li>Total Comprehensive</li> <li>Paid-up Equity Shar (Face value ₹ 1/- pe</li> <li>Other Equity</li> <li>Earnings Per Share</li> <li>Basic - Continuing</li> <li>Basic - Discontinue</li> <li>Didued - Lossontinue</li> </ol>	Period from Di Period ve Income/ (Los re Capital (Net : er share) Deparations (₹) d Operations (₹) ed Operations (₹)	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 )perations 4,119 3,860 (467) (471) iried 10,484 1,053 2,966 172,582 hares) 222 222 223 2222 88,447 77.969 66,229 77.969 18,52 17,35 14,83 63,85 18,50 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12)
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 (Hishabh R, Sarat) Managing Director THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Regd. Office: G1: Grave Flore Namel Net: CHS, Vayo Dete Marcin Complex. Bonds (W), Murca 400103 Tet: +9122 (1977 690 Email: nalang)doon Westler www.acclinet. CHL 1391004159ED.00204	सातामात्राणां दे दोते किंग सरवले भागीनामाना पुरसिर्व प्रदा : (प्रशिव प्रे. २२. अंतर्ज) से प्रायोग उपाया के द्वि, तर प्रायों ता सा सा- अविदिक मीता मेरामानु सि , उपाया पर से से तो सा परे , सुराध से प्राया पर से से प्राया द आणि सरद । साराध्याप्रेस से प्रायाद आणी सरद । साराध्याप्रेस (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ (२. परील सर्व प्र. १. ८ () पर प्रायाप्र अ स्वर्यादेवार व स्वार १७. ८ ३ २.२ ९ १ परील संव	<ol> <li>Profil (Loss) for the Profil (Loss) for the Profil (Loss) for the Fland-up Equity Sin- (Face value 7 1/-pe 9. Other Equity 10. Earnings Per Share Diluted - Continuing Basic - Discontinue Diluted - Continuing Diluted - Continuing Diluted - Continuing Diluted - Continuing Continuent Diluted - Continuing Diluted - Continuing</li></ol>	Period from Di Period re Capital (Net : ar share) Departions (₹) (Operations (₹) d Operations (₹ d Operations (₹ ad Operations (₹)	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St d Operations	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 0,90 (467) (471) perations 10,484 1,053 2,946 12,587 paraes) 222 222 223 2223 88,447 77,969 69,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,50 17,34 14,61 63,377 - (0,04) (2,10) (2,12) - (1,12) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,12) (2,12)
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 (Rishabh R, Sarat) Managing Director FREE PRESS JOURNAL Www.freepressjournal.in THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Regd. Offec. 6-1. Grand Flor. Neural Net Crist. Way Born Martin Complex. Bond (W), Murcas 400103 Tet-1912 2014 (2005 Brail: maingiblos) Westler www.acd.net.n Directors 2014 (2005 Brail: Martingiblos) Westler www.acd.net.n Directors 2014 (2015 Brail: Martingiblos) (2022 Directors 2014 (2015 Brail: Martingiblos) (2014 Directors 2014 (2015 Brail: Martingiblos) (2014 Directors 2014 (2015 Brail: Martingiblos) (2014 Directors 2014 Directors 2014 Directors 2014 (2015 Brail: Martingiblos) (2014 Directors 2014	रातालायात्वार देशों किया स्वर्थने भूमानियान्त्र पुर्वेश प्रायोः (परिणि क्र. १९ अंतर्गः) से पुर्वेश राजा के हैं, तर प्रार्थ ताता सा- से प्रेरिय के साम्या के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के सामद आसी सदा मार्थ्य के प्रार्थ के प्रार्थ के दे स्वर्धीय स्वर्ट आसी सदा मार्थ्य के प्रार्थ के र स्वर्धीय स्वर्ट के राष्ट्र (२) के प्रार्थ के प्रार्थ सामद के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ सार्थ के प्रार्थ के के प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ के के प्रार्थ के के प्रार	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit</li></ol>	a Period from Di Period ve Income/ (Los ve Capital (Net e er share) Depenations (₹) Depenations (₹) d Operations (₹ and Discontinue and Discontinue	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - (9) (467) (471) nod 10,484 1,053 2,946 12,589 222 223 223 88,447 77,969 59,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,56 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (1,23) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,23) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,23) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,23) (2,12
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022	तात्मारणात्मां देशों किया स्वर्थने सामित्यान्म (प्रार्थिय प्रा.) (प्रार्थिय प्र. 44 कामित्यान्म सामित्रिक उसा क्रि. 45 कामित्रा का का अधिरिक मीत्रा ने दिन्दु ते जा प्रार्था ना साने- अधिरिक मीत्रा ना देशां प्रार्थे सामित्र्य का का तो तान ने दुन्ता प्रार्थे कामित्रा न् प्रार्थे का कान्य से सामाद आणि सारं सामित्रा का कान्य र स्वर्धीन सारं का रिवर के राजे सामाद से र स्वर्धन सारं का र रिवर के सामाद से र स्वर्धन सारं का र रिवर के सामाद से सामाद से स्वर्थ का कार्य का स्वर्थन सामित्रा के सामाद के राजे र सीता सिक्य सीत्या का स्वर्थ सारं र कार्य कार्य सारं र स्वर्धन सामा का राजे र र रेजे र सीता सिक्य सीत्या के स्वराय स्वर्थन सामा कार्य सामान सीत्या का स्वर्थन सामाद के सामा स्वर्थन सामान्य सीवा साने रवतार सीत्या का सामा कि सामाद से स्वरा सीवा साने रवतार सीत्या का सामाने का सामाद्वा	<ol> <li>Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the (Face value % 1/- pre 9. Other Equity 10. Earnings Per Share Basic - Continuing Basic - Ontinuing Basic - Ontinuing Basic - Continuing Nuted - Continuing Nutes: 1. Revenue from Opera</li> </ol>	a Period from Di Period ve Income/ (Los ve Capital (Net e er share) Depenations (₹) Depenations (₹) d Operations (₹ and Discontinue and Discontinue	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations         4,119         3,860         3,254         14,201           operations         .09         (4,77)         (4,71)           noid         10,484         1,055         2,787         13,730           ihares)         222         222         223         222           88,447         77,969         69,229         77,969           18,52         17,35         14,63         63,85           18,52         17,34         14,61         63,77           .00,40         (2,10)         (2,12)         (2,12)           5(₹)         18,50         17,33         12,53         61,73           s(₹)         18,50         17,30         12,51         61,65           ax and Profit/ (Loss) for the Period on Standalone basis are given below.         (₹ in Crore, except otherwise stated)
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022	तात्मारणात्मां देशों किया स्वयत्ते भागविष्णामा (प्रार्थिय प्रदा, २०. अंतर्जन) (प्रार्थिय प्रदा, २०. अंतर्जन) से प्रार्थित उपाय स्वर्थ के सिंहि के स्वयत्त्र प्रार्थ के अंतिरिक दि, स्वर्थ के स्वर्थ के सिंहि के स्वयत्त्र के सिंहि के ते सार देश के सिंह के स्वर्थ के सिंहि के र वर्धी स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के सिंह के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के सार देश के स्वर्थ कि सार के स्वर्थ के सार स्वर्थ के सार देश के सार स्वर्थ के सार स्वर्थ के सार स्वर्थ के सार के स्वर्थ के स्वर्थ के सार सार सार स्वर्थ के सार सार के सार के सार देश के सार सार सार सार सार सार सार सार सार के सार देश के सार	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit</li></ol>	a Period from Di Period ve Income/ (Los ve Capital (Net e er share) Depenations (₹) Depenations (₹) d Operations (₹ and Discontinue and Discontinue	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	arations         4,119         3,860         3,254         14,201           operations
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 (Hishabh R, Sarat) Managing Director Mumbai (Hishabh R, Sarat) Munaging Director Munaging Director Muna	तात्मारणाठी दांगे हिंगा रूपली भागित्माना पुरस्पेरे प्राय) (परिपि प्र. ex. sion's) संपूर्वपेरे प्राय) (परिपि प्र. ex. sion's) संपूर्वपेर प्राय के प्राय संपूर्वप्र उपाय कर के प्राय के प्राय द्वारा के प्राय के प्राय	5. Profit (Loss) for the Profit Profit Profit Basic - Continuing Basic - Discontinue Diluted - Continuing Diluted - Continuing Notes: 1. Revenue from Opera	Period from Di Period Period el nocme/(Los el nocme/(Los re Capital (Net el strate) Deperations (₹ ) Operations (₹ ) Operations (₹ ) Operations (₹ ) d Operations (↑ ) d Ope	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations         4.119         3.860         3.254         14.201           perations         -         (9)         (4.77)         (471)           noid         4.119         3.851         2.787         13.730           noid         10.484         1.055         2.946         12.582           parations         222         222         223         222           88.447         77.969         69.229         77.969           18.52         17.35         14.63         63.85           18.60         17.34         14.61         63.77           -         (0.04)         (2.10)         (2.12)           -         (0.04)         (2.10)         (2.12)           -         -         (0.04)         (2.10)         (2.12)           -         -         (0.04)         (2.10)         (2.12)           -         -         17.30         12.51         61.65           ax and Profit/ (Loss) for the Period on Standalone basis are given below:         (Variance finde)         Year Ended           30052022         3103/022         3009/2022         3103/022         10/03/022           (Unaudited)         (Unaudited)         (Unaudited)         (A
On Behalf of Board of Directors Mumbai August 10, 2022 (Fishabh R, Sarat) Managing Director Mundai August 10, 2022 (Fishabh R, Sarat) Mundaing Director FREE PRESS JOURNAL FREE PRESS JOURNAL Mundaing Director Www.freepressjournal.in Www.freepressjournal.in THE AMALGAMAATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Red. Office: 61: Genuel Rox. Name Hand NS, Way Devis Manor Complex, Bond WM, Murcan 40013 16: 49:12 21:17 0004: 13:99: 0004:07 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER Fulled JUNE 30, 2022 (In Lanco) Country Ended 1 Total Income (Nal) 1 Net Profic.Loss for the period before Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period before Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period before Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period before Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period before Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period after Tax (before exceptional 1 Met Profic.Loss for the period after Tax (before exceptional 1 (13) (220) (124) (124) 1 (220) (124) (124) (124) (124) (124) 1 (220) (124)	तात्मारणाठी दांगे हिंगा रम्पली माणिवाचा पुरस्ते प्रयाः) (परिणि प्र. १४ अंतर्गः) संपूर्वते प्रयाः ३ संपूर्वते प्रयाः ३ २ भयीत सर्वतः ३ ३ २ भयीत सर्वतः ३ ३ ३ माण्यतः ३ ३ २ भयीत सर्वतः ३ ३ माण्यतः ३ ३ २ भयीतः ३ २ भयीतः २ २ भयीतः ३ २ भयीतः ३ २ भयीतः २ २ भयतः २ २ भयतिः २ भयतिः २	S. Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the Profi/ (Loss) for the Profi-Control (Early Shar (Face value & 1/- pe 9. Other Equity 10. Earnings Per Share Basic - Continuing Basic - Continuing Basic - Continuing Basic - Continuing Diluted - Continuing Notes: 1. Revenue from Opera (a) Revenue from Opera	Period from Di Period Period Period (Los re Capital (Net re stars) Operations (₹ ) Operations ( Operations ( ) Operations	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - 09 (477) (471) nod 10,484 1,055 2,966 12,587 222 222 223 222 88,447 77,969 59,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,56 17,34 14,61 63,377 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) (2,12) (2,12) - (0,04) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12)
On Behall of Board of Directors Mumbai August 10, 2022       (Rishabh R, Saratj Managing Director       FREE PRESS JOURNAL       Units of the second se	तात्मारवाराळी दांते किंग सरवले कालीकारण पुरस्ति प्रायः) (प्रशिणि प्रायः स्टः कोर्वन्ते) संपूर्वापे प्रायाः के प्रायः स्टः केंद्रे, तत्र प्राण्ते तात्म सः अधिरेतिक सेतिक नेपाल्युं किं, ज्याया परः केंद्र में प्रायाः आपताः क्रांत्म तादां भारत्यारण्डा के ति स्त्रीय स्टंड काली प्रारं के प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रारं किंग्र मान्यार सा ग्राव्या ज्यावा स्वरंक प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रारं का प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रारं का प्रायाया क र पर्वति स्वरंड का रिश्वः के प्रारं का प्रायाया क र प्रारं के प्रायाया के स्वरंड का प्रायाया क स्वरंड वा प्रायाया देवाया व्याव्या प्रायाया स्वरंत विका स्टार्थ्या स्वरंत प्रायाया क्रिया प्रायाया कि स्वरंत स्वरंत में प्रविधीय प्रायाया के सित्र स्वरंत्र मार्थिया प्रायाया प्रतीप्त स्वर्णाक स्वरंत किंग्रिय प्रदेशिया कुराये सामित स्वरंत भाव्याद्वारा केर्या में प्रायायात्मा प्रतीप्त स्वर्णक स्वरंत का स्वरंत स्वरंत्र मा स्वरंत्र स्वरंत का सित्राय्वाया के स्वरंत स्वरंत्र मा स्वरंत्र स्वरंत का सित्राय्वाया स्वरंत मार्थे स्वरंत्र स्वरंत्र का सित्राय्वाया स्वरंत में इनियाया स्वरंत्र स्वरंत का सित्राय्वाया सेत्राया के प्रतिकार प्रतीप्त स्वरंत का स्वरंत्र स्वरंत मार्थे स्वरंत स्वरंत्र स्वरंत्र साध्यात्वार सेत्राया स्वरंत्र साध्या स्वरंत्र स्वरंत्र सित्र स्वरंत्र साधीयात्र कुराव्या सार्वात्र साध्यात्वार्य स्वरंत्र स्वरंत्र साधीयात्र कुराव्या सार्वात्र साध्यात्वार्य साध्यात्वार्य साधी सेत्राया स्वरंत्र साध्या साधी स्वरंत्र स्वरंत साधी साध्यात्वार्य साधित	Forli/ (Loss) for the     Forli/ (Loss) for the     Forli/ (Loss) for the     Forli/ (Loss) for the     Total Comprehenses     Pai-dup Equity Shar     (Face value & 1/- pe     Other Equity     Other Equity     Other Equity     Diluted - Continuing     Basic - Discontinue     Diluted - Continuing     Diluted - Continuing     Notes:     .     Revenue from Opera     (a) Revenue from Opera     (b) Profi/ (Loss) for the     (c) Profi/ (Loss) for the     (c) Other (quity	Period from Di Period Period Period (Los re Capital (Net re stars) Operations (₹ ) Operations ( Operations ( ) Operations	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - 09 (4471) road 10,484 1,055 2,966 12,587 13,730 222 222 223 222 88,447 77,969 69,229 77,969 18,52 17,25 14,83 63,85 18,50 17,24 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2
On Behall of Board of Directors August 10, 2022       IFREE PRESS JOURNAL Interview Interview	तात्मारवालां दे दोर् किंग सरकर्म भागीनवान्च पुरस्परे प्रयाः) (हार्थियों क्र. स्. अंकेंग्री) से पुराध्ये उपराध के ही, तर प्राप्ता का सा- अंधेरिक सीका नेपाल्च ही स. उपराध पर केंग्रे से प्रयाद आणी तरहां साम्प्रदर्शका विश्विप्रियं के प्राप्त का स्वरूप्रदेश किंग्रिक क्र. (२ प्रवीस सहि. २, १८९ (३) साम्प्राय क्रांत्र (२ प्रवीस प्रार्थ का १७ ४३ २०९९) साम्प्राय स्वर्म्यात क्रांत्र विषय क्रांत्र के २०९९ साम्रीस विषय साम्प्राय क्रांत्र व्याप्ता क्रांत्र का प्रवास क्रांत्र क्रांत्र से प्रविध्य क्रांत्र का प्रायाद्व व्याप्त क्रांत्र क्रिया का इत्यांत्र व्याप्त क्रांत्र का प्रायाद्व का स्वरूप्र विश्वम हर्प्य क्रिया क्रांत्र का प्रायाद्व का स्वरूप्र विश्वम हर्प्य क्रिया क्रांत्र का प्रायाद्व का क्रांत्र क्रांत्र में व्याप्यात्व प्रविध्य क्रांत्र का स्वरूप्या क्रांत्र में व्याप्यात्व प्रवास क्रांत्र का स्वरूप्य क्रांत्र में व्याप्यात्व प्रवास क्रांत्र का स्वरूप्य क्रांत्र मा व्याप्यात्व क्रांत्र का स्वरूप्य क्रांत्र कार्या व्याप्यात्व क्रांत्र का स्वर्ण क्रांत्र का स्वरूप्य कार्या क्रांत्र का स्वरायाद्व का स्वरं क्रांत्र कार्या क्रांत्र का स्वरायाद्व क्रांत्र का स्वरूप्य कार्यात्व क्रांत्र का स्वर्ण क्रांत्र का स्वरूप्य कार्यात्व क्रांत्र का स्वर्ण क्रांत्र का स्वरूप्य क्रांत्र	<ul> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Basic - Continuing Basic - Continuing Basic - Discontinuue Diluted - Continuing Notes: 1. Revenue from Opera (e) Profit (Loss) for the (c) Profit (Loss) for the</li></ul>	Period from Di Period Period e Income / Los ere capital (Net ere ar share) ( Operations (₹ ) ( Operations (₹ d Operations (₹ d Operations (₹ d Operations (₹ d Operations, ere and Discontinue and Discontinue titons, Profil/ (Lc attons Tax Period times)	scontinued O s) for the Peri of Treasury St Treasury St c) d Operations ed Operation	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 )perations - (9) (467) (471) ind 10,484 1,053 2,966 12,567 12,562 shares) 2,222 2,223 2,222 88,447 77,969 66,2,29 77,969 18,52 17,35 14,83 63,85 18,50 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,22) - (1,04) (2,10) (2,22) - (0,04) (2,10) (2,22) - (0,04) (2,10) (2,22) - (2,12) (2,12) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,22) - (1,04) (2,10) (2,12) - (1,04) (2,10) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,04) (2,10) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) - (1,04) (2,10) (2,12) (2,12) (2,12) (2,12) (2,1
On Behalf of Board of Directors     Mumbai     August 10, 2022     (lishabah R, Sarat)     Managing Director     FREE PRESS JOURNAL     FREE PRESS JOURNAL     FREE PRESS JOURNAL     Www.freepressjournal.in     THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED     Regd. Offer: 6-1. Groud Flor. Nemal Net: CNS, Vayu Devis Manor Complex. Bonia (VV), Murcae 400103     Tel-91 22 047 (V8) Email: milling/bokan Website: www.acd.net.n     CNL 1300000139PL00204     Standard Unduling 2000-2021 2000-2021 2000-2021     Total income (Nat)	तात्मारणाठी दांगे हिंगा स्वर्थने सामित्याचा (परिणि ३८. १९ अंतर्ग) (परिणि ३८. १९ अंतर्ग) से पुर्वाप उराज १९ वि. उदा गाते ता सा- अंतेरित परि. मुराव्य उराज साम् अंतिर परि. मुराव्य उराज साम् से सामाद आणि सरद भार्य सामाद ४. १२ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद ४. १२ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद ४. १२ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद १२ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद १४ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद १४ वर्षी समयद आणि सरद भार्य सामाद १४ वर्षी सामाद भार्य सामाद ४. १४ वर्षी सामाद भार्य सामाद १४ १४ वर्षी सामाद १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे भार्य १४ वर्षे सामाद १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ भारत १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वरे १४ वरे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वर्षे १४ वरे १४ वरे १४ वरे १४ वरे १४ वर्षे १४ वर्रे १४ वर्षे १४ वर्रे १	<ul> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Basic - Continuing Basic - Continuing Basic - Discontinuum Basic - Continuing Diluted - Continuing Notes:</li> <li>Revenue from Opera (a) Revenue from Opera (b) Profit (Loss) for the (c) Profit (Loss) for the (c) Other Equity (a) Net worth (b) Debt Equity (b) Debt Equity (c) Debt</li></ul>	Period from Di Period Period Period Period Period Period Period Period Coperations (* C) Operations (* d) Operatio	scontinued Q s) for the Paris f Treasury St f c) d Operations ed Operations ss) before Ta	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - (9) (467) (471) perations - 10,484 1,053 2,946 12,562 thares) 2,222 2,223 2,222 2,223 2,222 2,223 2,222 88,447 77,969 65,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,50 17,34 14,61 63,377 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,10) (2,
On Behalf of Board of Directore     Mumbai     August 10, 2022     (Fishabh R, Sarat)     Managing Director     FREE PRESS JOURNAL     FREE PRESS JOURNAL     FREE PRESS JOURNAL     Www.freepressjournal.in     THE AMALGAMAATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED     Reg4. Offec: 61: Grout Floor Nerral Net: CNS, Vayu Betk March Complex, Bonka (Vi), Murcia 400103     Tet-91 22 0147 0001 Enail: milanglobo. Westler: www.act.net.n     CNL 3100001139PL00201     StreAct Of UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED UNE 80, 2022     (In all Income (Net)     Total Income (Net)     And Income (Net)     Net Position (Soft Complex)     (In analited Vinaudited V	तात्मारवाणां दे दोर्ग किंग स्वर्थने सामित्याचा (परिणि प्र. ex side/s) (परिणि प्र. ex side/s) से पुर्वप्रे उपाया अन्तु हो, तर प्राप्ता का सा- अधिरेहत सीमा केंग्राप्त हो स. उपाया पर केंग्र तो तर गरे तुरा स्वर्ध्य कार्या तर किंग्राप्त का संवर्ध्य कार्या कार्या केंग्राप्त हो स्वर्ण्य पर से प्रत्याय आणी सरा सामाप्तरेका केंग्राप्त हो स्वर्ण्य कार्या केंग्राप्त का स्वर्ण्य कार्या केंग्राप्त का स्वर्ण्य कार्या सामाद आणी सारा स्वर्ध्य मामाप्रतेका सामाद आणी सारा स्वर्थ का स्वर्ण्य सामाद से प्राप्त कार्या केंग्राप्त का स्वर्ण्य कार्या स्वर्ण्य कार्या केंग्रा सामाद से प्राप्त केंग्राप्त केंग्रा केंग्राप्त सामार से प्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त का स्वर्ण्य सामार से प्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त सामेत्रा केंग्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त का स्वर्ण्य सामान किंग्राप्त केंग्राप्त कार्या का सामाद्राप्त केंग्रा से इंग्राप्त केंग्राप्त का सामाद्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त का सामाद्राप्त केंग्रा केंग्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त केंग्राप्त साहत्याप्त किंग्राप्त कार्यालय क्रिया कार्या कार्या साहत्याप्त किंग्राप्त कार्या कार्या कार्या केंग्राप्त साहत्याप्त किंग्रा का साहत्याप्त केंग्रा कार्या कार्य साहत्याप्त किंग्रा कार्या कार्या कार्या केंग्रा सांत्याप्तिका साहत्याप्त केंग्रा केंग्रा साहत्याप्त केंग्रा केंग्रा केंग्रा क्रांग्राप्त केंग्राप्त केंग्रा केंग्रा सांत्याप्तिका साहत्या	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Garrings Per Share Basic - Continung Dituted - Continung Ditute</li></ol>	Period from Di Period Period Period Period Portations (K) Deperations (K) Deperatio	scontinued Q s) for the Period of Treasury St of Treasury St d Operations ed Operations d Operations ss) before Ta	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - 09) (407) (471) perations 4,119 3,851 2,787 13,730 nod 10,484 1,053 2,946 12,587 2,922 222 223 2222 2,23 2222 2,23 2222 2,23 2222 2,23 2222 2,23 2222 2,23 2222 2,23 222 18,52 17,35 14,63 63,85 18,50 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) 5 (7) 18,52 17,31 12,53 61,73 18,50 17,30 12,51 61,65 ax and Profiv (Loss) for the Period on Standalone basis are given below. (₹ In Crore, except otherwise stated) 2,277 3,102 31(03)2022 30(06)2021 31(03)2022 3006/2023 31(03)2022 30(06)2021 31(03)2022 19,518 18,969 13,298 67,563 2,277 4,408 6,675 54,206 5,626 54,205 50,455 54,206 5,626 54,205 50,455 54,205 0,33 0,36 0,43 0,35 0 102
On Behall of Board of Directore     Mumbai     Mumbai     Minaging Director     Managing Director     Managing Director     Managing Director     Managing Director     FREE PRESS JOURNAL     FREE PRESS JOURNAL     Www.freepressjournal.in     THE AMALGAMAATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED     Reg.0 Offec: 61: Ground Boox Networks: exwand.net.in     Chi 13100001139P.COO201     Table State State     State State State     Chi 1310001139P.COO201     Managing Director     Monaging Director     Monaging Director     The AMALGAMAATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED     Reg.0 Offec: 61: Ground Boox Networks: exwand.net.in     Chi 13100001139P.COO201     The 4912201470001139P.COO201     State State State     Monaging Director	तात्मारवाणांदे दांवे किंग स्वर्थने भागित्वाच्या दुर्वादे प्राराः) (हार्थियों प्राः २२ अंतर्थः) संदुर्वादे प्राराः) केंग्रियों के साम्ये केंग्रियां केंग्रियां भागित्वा केंग्रियों के साम्ये केंग्रियां केंग्रियां भागित्वा केंग्रियों के साम्ये केंग्रियां हुन्दा भाग्यत्व केंग्रियों के साम्ये केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियों केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां किंग्रियां केंग्रियां केंग्रियों केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियों केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियों केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां कार्यतां के साम्ये कार्यातां हो सांय कार्यान्त कर्मता केंग्रियों केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रियां किंग्रेयां दुर्वीयां अभिविद्यां किंग्रा कार्याव्यां किंग्र किंग्रेयां दुर्वीयां अभिविद्यां किंग्रा कार्याव्या केंग्रेयां केंग्रियां केंग्रियां केंग्रायां केंग्रियां केंग्रेयां केंग्रियां केंग्रायां केंग्रायां केंग्रायां केंग्रा किंग्रियां दुर्वीयां के प्रित्यां क्रिस्ट केंग्रायां केंग्रेयां किंग्रेयां क्रायां क्रायां क्रायां क्रायां केंग्रायां किंग्रियां क्रायां क्रायां क्रायां क्रायां केंग्रायां केंग्रायां केंग्रेयां के किंग्रायां केंग्रायां केंग्रायां केंग्रायां कार्यां केंग्रियां केंग्रायां कार्यायां केंग्रायां केंंग्रायायां केंग्रायायां केंग्रायायां केंग्रायां	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Basic - Continung Basic - Detentinung Basic - Detentinung Basic - Detentinung Basic - Detentinung Basic - Continung Diuted - Continung Diuted - Continung Notes: 1. Revenue from Opera Particulars (a) Revenue from Opera (b) Profit (Loss) for the (c) Other Equity (a) Capital Redempton i (b) Debenture Redemptin (c) Debenture Redemp</li></ol>	Period from Di Period Period Period Period Coperations (₹ ) Operations (↑ )	s) for the Period of Treasury St of Treasury St d Operations ed Operations ss) before Ta ss) before Ta	erations erations → (9) (4477) mod 10,484 1,055 2,787 13,730 222 222 223 222 88,447 77,969 69,229 77,969 18,52 17,25 14,83 63,85 18,52 17,25 14,83 63,85 18,52 17,25 14,83 63,85 18,52 17,25 14,83 63,85 18,52 17,25 14,83 63,85 18,50 17,24 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,12) (2,10) (2,10) - (0,04) (2,10) (2,10) (2
On Behall of Board of Directore     Managing Director     Man	तात्मारवाणां देशों किया स्थलने मानीवाणाः पुर्वश्वे प्रयाः) (हार्थियों क्र. १२ अंतर्थन्ते) से पुर्वश्वे प्रयाः क्रेन्द्रि, वड साली नाम सा- अविदिक सीता वेषायाद्वे हिं , व्यापा पण्ट के तो ते हार गेर, गाइस्वार्थ्वना सार्विण क्र से प्रयाद आणि सारं पार्थायां प्राण्याः क्र १२ अपील सहि. २२ (२) मेर प्राण्याः क्र १३ स्थान्य्यं क्र (२२ (२) २) भारत्याः क्र स्थान्यः क्रांत्र स्थान्यः व्याप्तिः क्र स्थान्यः वार्थ्वा प्राण्याः स्थान्यः विष्ठ स्थान्यः द्वार्थीं क्रांत्रा स्थान्यः विष्ठ स्थान्यः द्वार्थीं क्रांत्रा स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः विद्यमित्रा आधीन्त्र स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः विद्यमित्रा आधीन्त्र स्थान्यः विद्यमित्र स्थान्यः स्थान्यः पित्रार्थे स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः पित्रार्थे स्थान्यः स्य	5. Profit (Loss) for the 6. Profit (Loss) for the 7. Total Comprehenses 8. Paid-up Equity Shar (Face value & 1/- pe 9. Other Equity 9. Other Equity 10. Earnings Per Share Basic - Continuing Basic - Distort-Continuing Basic - Distort-Continuing Diluted - Continuing Diluted - Continuing Notes: 1. Revenue from Opera (a) Revenue from Opera (b) Profit (Loss) for the (c) Other Equity (a) Revenue from Opera (c) Other Equity (b) Debt Equity Ratio (in (c) Other Equity (c) Debt Service Coverag (c) Interest Service Cover 2. The above is an extri	Period from Di Period Period Period (Loser Capital (Net e er Share) ( Operations (? ) Operations (? d Operations () d Opera	scontinued Q s) for the Period of Treasury St c) d Operations ed Operations ed Operations ss) before Ta ss) before Ta ss) before Ta dion 2015	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations - 090 (407) (471) perations 4,119 3,851 2,787 13,730 nod 10,484 1,053 2,946 12,587 2,222 2,223 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,223 2,24 14,61 63,77 1,850 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (2,12) 5 (₹) 18,50 17,30 12,51 61,65 ax and Profit/ (Loss) for the Period on Standalone basis are given below. (₹ in Crore, except otherwise stated)
On Behall of Board of Discretors Manuality         August 10, 2022         FREE PRESS JOURNAL           Press Journal Line         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         The August 10, 2022           Press Journal Line         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         The August 10, 2022           Press Journal Line         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         The August 10, 2022           The August 10, 2022         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         The August 10, 2022           The August 10, 2022         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         The August 10, 2022           The August 10, 2022         Free Press Journal Line         The August 10, 2022         (I in Lance           The August 10, 2023         Free Press Journal Line         The August 10, 2020         (I in Lance           The August 10, 2020         Free Press Journal Line         (I in Lance         (I in Lance           The Internal Income (Nat)         Free Internal Method Income Internal Line         (I in Lance         (I in Lance)           Internal Income (Nat)         Free Internal Line Computer Internal Line         (I in Lance)         (I in Lance)           Internal Income (Nat)         Free Internal Line Computer Internal Line         (I in Lance)         (I in Lance)           Internal	तात्मारणाठी दोगे दिवा सरले मानिकाल दुर्वादे प्रयाः) (हार्विणे प्र. २० अंतर्गः) (हार्विणे प्र. २० अंतर्गः) को प्रथ्येत उपाण अन्ति हैं, उदा प्राण्ते पा का अधिरिक मीता मेरावादी है, उपाल भार का आधीरिक मीता मारा भार्तिकाल्प का स्वार्थना का दिवार्या प्रयास अपनि सरद भार रहा प्राण्ता क र वर्धनी सरह आणि सरद भार्या प्राण्ता क र वर्धनी सरह आणि सरद भार्या प्राण्ता क र वर्धनी सरह आर्थ रहा रहा प्राण्ता क र वर्धनी सरह अर्थ र वर्धने र तीर्धने सरह मोतावर प्राण्ता भार्ये स्वारा का स्वार्थना मोतावर विद्युधी सीमार्थनिका सरहकार विद्युधनी मोतावर विद्युधी सीमार्थनिका सरह सार्या प्रति स्वारा प्रति स्वारा स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना मोतावर विद्युधी सीमार्थना स्वारा विद्युधन मोतावर विद्युधनी स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना वीर्धना प्रति स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना वीर्धना प्रति स्वारा स्वाराधना के स्वारा स्वाराधना वीर्धना प्रति स्वारा स्वाराधना स्वार्थना स्वार्थना वीर्धना प्रति स्वारा स्वाराधना क्वरते प्राण्ता स्वार्थना प्रति स्वाराधना स्वाराधना स्वार्थना स्वार्थना स्वाराधना प्रति स्वाराधना स्वाराधना स्वाराधना के स्वा विद्याना प्रति स्वाराधना स्वाराधना स्वार्थना स्वार्थना क्वर्णना वीर्धना प्रति स्वाराधनात्मात्वार्थना स्वार्थनार्थना स्वाराधनात्मा स्वार्धना स्वाराधना क्वरते स्वारा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मात्वार्थना स्वार्धनात्मात्वार्थना स्वाराधनात्वा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा के स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा स्वाराधनात्मा	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Basic - Continuing ( Diluted - Continuing (</li></ol>	Period from Di Period Period Period (Loser Capital (Net e er Share) ( Operations (? ) Operations (? d Operations () d Opera	scontinued Q s) for the Period of Treasury St c) d Operations ed Operations ed Operations ss) before Ta ss) before Ta ss) before Ta dion 2015	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 4,119 3,851 2,787 13,730 nod 10,484 1,053 2,966 12,587 2,987 12,582 222 223 2222 223 2222 223 2222 88,8,47 77,969 69,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,50 17,34 14,61 63,77 - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (2,10) (1,23) (1,03) - (0,04) (2,10) (2,12) - (0,04) (1,00) (1,00) - (0,05) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) - (0,05) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) - (0,05) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1
On Behall of Board of Discretors Manuality         August 10, 2022         FREE PRESS JOURNAL           Free Press Journal Line         Free Press Journal Line         Free Press Journal Line           Free Press Journal Line         Free Press Journal Line         Www.freepressjournal.line           The Anna Line Press Journal Line         Free Press Journal Line         Www.freepressjournal.line           The Anna Line         Free Press Journal Line         Www.freepression           The Anna Line         Free Press Journal Line         With Endet           The Anna Line         Free Press Journal Line         With Endet           The Anna Line         Free Press Journal Line         With Endet           The Anna Line         Free Press Journal Line         With Endet           The Anna Line	तात्मारवाणां देशों किया स्वयत्ने भागीनाणाः पुर्वश्वे प्रयः) (हार्थियों क्र. २४ अंदर्थन्ते) सं पुर्वश्चे प्रयाः क्रे दिन्द्रे, तत्र प्रात्मे तास सा- अधेरित स्वीता केया स्वयत्ने क्रिस्टिम क्र. १४ प्रयास द्व्राव्या सार्वत् प्रात्मार क्र. १४ प्रयास इ. प्रात्ना सार्वत प्रात्मार क्र. १४ प्रयास इ. प्रात्ना १४ २० २० २४ प्रात्मा क्रांध्व राज्या सा सुध्यी ज्ञावार तेष्ट्री पात्र आवास सार्वत् १४ प्रात्मार इ. १९२९ देश्वर प्रात्मार क्र. १२ प्रात्मी सार्वेट २४ २० २१ प्रात्मा क्रांध्व राज्या सा सुध्यी ज्ञावार तेष्ट्री पात्र अवस्थित राज्या सा सुध्यी ज्ञावार तेष्ट्री पात्र अवस्थित स्वतित्र प्रात्मा स्वर्थन्ति स्वतः आवंक्र तेष्ठा स्वतित्र सार्वेया प्रात्मा स्वति स्वत्या सार्वत्या विज्ञा सार्वत्या प्रात्मा स्वति स्वत्या आवंक्र तेष्ठा स्वर्थना प्रात्मा स्वतित्र आवंक्ष प्रात्मा स्वतित्र सार्वत्या तेष्ठत्व स्वतित्र प्रात्मा स्वति सार्वाच स्वतित्य त्रिवर्धना स्वतित्र प्रात्मा स्वति सार्वत्या क्रिस्टराज तेष्ठत्व स्वतित्र या स्वत्यात्वाक्ष स्वतित्या स्वत्यात्वात्वात्वा तेष्ठत्व स्वतित्र सार्वत्या स्वताना सार्वत्या क्रिस्टराज तेष्ठते सार्वत्या स्वताना स्वत्यात्वा स्वतान्त्रा स्वत्यात्वा तेष्ठत्व सार्वत्यात्व स्वताना स्वत्यात्वा स्वताना सार्वत्या तेष्ठत्व सार्वत्या स्वताना सार्वत्यात्व क्रांस स्वतित्यात्व स्वताना स्वत्यात्व सार्वान्य क्रेंस्टराज्या सांवल्यक सार्वत्या स्वताना सार्वत्या क्रांस्टराज्या क्रेंस्टराज सांवल्यक सार्वत्या स्वत्या सार्वत्या क्रांस्टराज्या क्रेंस्टराज्या सांवल्यक सार्वत्या स्वत्य सार्वत्या स्वत्यात्वा सार्वत्य क्रांस्टराज सांवलायक सार्वत्या स्वत्या सार्वत्या स्वत्या साराव्या क्रेंस्टराज्या सांवल्यक सारात्व साराव्या स्वयाय सारात्व द्वाव्या साय्वान्य सांवल्यक सात्वा स्वत्य सात्वा स्वत्या सारात्वा सारात्व	<ul> <li>Forful (Loss) for the Profil (Loss) for the Basic - Continuing Basic - Continuing Basic - Discontinue Diluted - Continuing Diluted - Continuing Notes: 1. Revenue from Opera (a) Revenue from Opera (b) Profil (Loss) for the (c) Profil (Loss) for the (c) Profil (Loss) for the (c) Other Equity (a) Net worth (b) Debt Service Coverag (c) Interest Service Coverag (c) I</li></ul>	Period from Di Period Period Period (Loser Capital (Net e er Share) ( Operations (? ) Operations (? d Operations () d Opera	scontinued Q s) for the Period of Treasury St c) d Operations ed Operations ed Operations ss) before Ta ss) before Ta ss) before Ta dion 2015	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 4,119 3,851 2,787 13,730 rind 10,484 1,053 2,946 12,587 2,946 12,587 12,582 2,222 2,223 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,222 2,23 2,223 18,50 17,34 14,61 63,77 18,50 17,34 14,61 63,77 19,53 61,73 18,50 17,30 12,51 61,73 at and Profil/ (Loss) for the Period on Standalone basis are given below: (¢ in Crore, except otherwise stated) <b>Quarter Ended</b> <b>Quarter End</b>
On Behalf of Board of Directors Manubai August 10, 2022         Pressort (Rishabh R, Sarat) Managing Director           FILE PRESS JOURNAL August 10, 2022         Fileshabh R, Sarat) Managing Director           FILE PRESS JOURNAL Directors         Fileshabh R, Sarat) Managing Director           THE AMALGAMMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED Reg. Offer: 6-1 Grand-Por Iwral Net (NS, Way Dets March Complex, Bonal (W), Marcia 400133 Tel: 91 22 0478 0881 Brail: milling/b0ar Wester: www.actinetic Child Strobust Sape: 00024 Tel: 91 22 0478 0881 Brail: milling/b0ar Wester: www.actinetic Child Strobust Sape: 00024 Tel: 91 22 0478 0881 Brail: milling/b0ar Wester: www.actinetic Child Strobust Sape: 00024 Tel: 91 22 0478 0881 Brail: milling/b0ar Wester: www.actinetic Child Strobust Sape: 00024 Tel: 91 22 0478 0881 Sape: 00024 Tel: 91 20 400 20024 Tel: 91 20 400 2002 Tel: 91 2	तात्मारणाठी दोर्ग किंग स्पर्शन मानिकान्स पुर्वन्ते प्रायः) (हार्थनि प्रायः २० अंतर्गः) संपूर्वये प्रायः) (हार्थनि प्रायः २० अंतर्गः) संपूर्वये प्रायः) देश्वारं स्वार्थना स्पर्धन्त संपूर्वये प्रायः २० अंति सर्वा साम्प्रदेश्वा तेत्री हार्थने प्रायः २० अंतर स्वार्थना स्वार्थना संपूर्वये प्रायः २० अंतर स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थनात्र स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थनात्र स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थनात्र स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थनात्र स्वार्थना स्वार्धनात्व स्वार्धनात्व स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्थना स्वार्यना स्वार्यन्त स्वार्थना स्वार्यन्त स्वाय्यन्त सित्व स्वार्यन्त स्वार्यन्त स्वार्यन्त स्वायन्त स्वाय्यन्त सित्वस्	<ol> <li>Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Profit (Loss) for the Basic - Continuing ( Diluted - Continuing (</li></ol>	Period from Di Period Period Period (Loser Capital (Net e er Share) ( Operations (? ) Operations (? d Operations () d Opera	scontinued Q s) for the Period of Treasury St c) d Operations ed Operations ed Operations ss) before Ta ss) before Ta ss) before Ta dion 2015	erations 4,119 3,860 3,254 14,201 perations 4,119 3,860 3,254 14,201 nod 10,484 1,053 2,946 12,587 13,730 2,242 2,222 2,223 2,222 88,447 77,969 69,229 77,969 18,52 17,35 14,63 63,85 18,50 17,34 14,61 63,377 18,50 17,30 12,51 61,65 ax and Profil (Loss) for the Period on Standalone basis are given below: (¢ in Crore, except otherwise stated) 2005/2022 3103/2022 3006/2021 3103/2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 19,518 18,60 13,208 67,65 56,489 54,428 50,673 54,428 0,33 0,36 0,43 0,36 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 0,36 0,43 0,36 0,52 8,82 5,84 7,83 0,33 0,36 0,43 0,36 102 102 102 102 102 102 102 103 0,36 0,43 0,36 0,52 8,82 5,84 7,83 0,33 0,36 0,43 0,36 102 102 102 102 102 102 103 0,36 0,43 0,36 0,52 8,82 5,84 7,83 0,33 0,36 0,43 0,36 0,52 8,82 5,84 7,83 0,50 1,388 1,500 0,62 8,82 5,84 7,83 0,33 0,36 0,43 0,36 102 102 102 102 102 103 0,36 0,43 0,36 0,53 0,54,28 0,53 0,54,28 0,53 0,54,28 0,53 0,54,28 0,53 0,54,28 0,53 0,54,28 0,550 5,54,55 54,48 1,550 5,54,55 54,48 1,550 5,54,55 54,48 1,550 5,54,55 54,48 1,550 5,54,55 1,550 5,54,55

Regd. Office: G-1, Ground Floor, Nirmal Nest CHSL, Vayu Devta Mandir Complex, Borivali (W), Mumbai 400103	कार्यपालक अभिय		(Form Regi Tel: 022-6691 1234; Fax: 02	CIN No.: L55101M stered Office: The Lee 2-6691 1458; Email: in xtract Of Financi Quarter Ended	la, Sahar, Mumba restor.service@hl	i - 400 059. vitd.com: Web		
Tel: +91 22 6747 5000 Email: noisegétoto: Windows war acteur doinaí (17), Mantas 40003 CRI: L3100MH1395PLC002457 EXTRACT OF UNAUDITEU FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022	ग्रामीण विकास विश mail-rdsdgumla:	123@gmail.com	Partice		Qua En 30-J	ded Er un-22 30-J	nded E June-21 31-	n Lakhs) Year nded Mar-22
(r in Lakh Cuarter Ended Vera Ende 0 Particulars 30.05.2022 [31.03.2022] 30.06-2027 [31.03.202	g इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित ई-निवि	दा सं0 RDD/SD/GUMLA/08/2022-	Total Income from operations (r Net Profit /(loss) for the period (	before tax and exceptio		4,090 172	770 (1,580)	7,632 (3,255)
Unaudited         Audited         Unaudited         Audited	कारणो से निम्नवत संशोधित किया जा	opment (22-23)D ह,को अपरिहाय ता है:— शन की तिथि:—23.08.2022	Net Profit /(loss) before tax (after Net Profit /(loss) after tax Total comprehensive income for			(267)	(1,319)	(4,251) (4,251) (3,949)
and/ or extraordinary items) (1.81) (2.20) (1.24) (12.42) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional	2. ई-निविदा प्रप्ति की तिथि	र एवं समय:- दिनांक 23.08.2022 से	Equity share capital Earnings per share (in Rs.) - Ba					13,185
and/ or extraordinary idems)         (1.81)         (2.20)         (1.24)         (12.42)           Net Profit/(Loss) for the penod after Tax (after exceptional and/ or extraordinary idems)         (1.81)         (2.20)         (1.24)         (12.42)	दिनांक 30.08.2022 अपरा 3. निविदा शुल्क अग्रधन की	राशि Bank Certificate एवं Affidavit	Notes 1 The above is an extract of t	ne detailed format of qu	arterly financial re	esults filed with	h the Stock Ex	changes
Other Comprehensive income (after tax) Total Comprehensive income (after tax)	जमा करने की तिथि एवं स 01.09.2022 5:00 बजे तक	1	under regulation 33 of the SE format of the quarterly finance and www.bseindia.com resp	BI (Listing Obligations a ial results are available actively and on Company	nd Disclosure Rec on the websites o	uirements) Re If NSE and BSI	egulations 2015 E at www.nseir	. The full idia.com
Equity Share Capital 138.83 138.83 138.83 138.83 138.83 138.83	00 बज	एवं समय:-02.09.2022 अपराहन 2. कार्यपालक अभियंता	2 The financial results for the Board and approved by the been reviewed by the Statuto	quarter ended 30th jur	18 2022 were rev	newed by the i	Audit Committe	and the
Basic ₹ (0.90) Diluted ₹	शेष नियम एवं शर्त यथावत रह PR_275456 Rural Development(22-		3 Figures have been regrouped	ry Auditors of the Comps I, rearranged or reclassi	fied wherever nece	essary.	he Board of D	
tes: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for the quarter ended June 3 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEB/(Listing Obligations and Disclosult Requirements) Regulations , 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on th	re		Place: Mumbai Date: 10th August, 2022				Vinay	Kapadia hairman
Requirements) requirements, 2015, the function of the Qualitary inflancial results are available on the Stock Exchange website <u>www.beaming.com</u> and on our website <u>www.beak.chail.m</u> 1. This statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 201 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (India Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.	NOTICE is hereby given that on instructions of our clients who are in negotiations with (1) CAPT, XERXES K.	Registered Office : 205 & 206 (Part).	CIN 193000MH	Limited 1981PLC024747 Sagar Estate, F-Blo	ck, Dr. Annie E	Besant Road	d. Worli, Mu	mbai-400
For Amlagamated Electricity CompanyLimite Nitin Velha Vibel Time Direct Whole Time Direct Dire: 002708 Dire: 002708	mentioned office premises. CAPT.		D STANDALONE FINANCIAL I		E QUARTER E		H JUNE, 20	22 (Rs. in L Year E
IN . 19 August, 2022 Din: 005205	Agreement copy dated 6th March, 1980 between M/s Rajgir Builders (Developer)and Mr, Raoji Dattaram	No.			30.06.2022 3 Unaudited)	Audited) (Audited) Refer Note	30.06.2021 (Unaudited (Refer Not	31.03
Behind our remarkable	Rane (the Purchaser) in respect of the Scheduled property has been lost/misplaced/ destroyed and in	Total income from operations     Profit/(Loss) before exceptional ite	ms and Tax		1.533.60	No. 14) 2 080.30	No. 14) 1.690.7	
TRANSFORMATION	respect of which a Police complaint has been lodged on 10th August, 2022 with	3 Profit/(Loss) before tax     4 Net profit/(Loss) after Tax			(1.432.31)	2 888.61 50.132.88	(3.061.31	40.1
	Cuffe Parade Police Station bearing Complaint no: 34782/2022. If the lost document is found by any person, may	5 Total Comprehensive Income for t (after tax) and other Comprehens	ive Income (after tax)	ss) for the period	(1,432.31) (1,433,97)	50.132.88 50.130.97	(3.061.31	
are our people	contact us on the below-mentioned address.	6 Paid-up equity share capital (Face 7 Other Equity	value per share Rs. 2/-)		5.245.52	5.245.52	5,245,5	2 5,3
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS	Any claim made by any person based on the said lost Agreement shall not be maintainable and or accentable Suther	8 Earnings Per Share (of Rs. 2 each - Basic	n) (for continuing and discontinue	ed operations)	(0.55)*	19,11*	(1,17)	
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022	maintainable and or acceptable. Further, despite this Notice if any member of Public enters into any contract and/or	- Diluted (*not annualised)			(0.55)*	19.11*	(1.17)	
Rs. in Crore Quarter ended Year ended Particulars 30-Jun-12 30-Jun-21 31-Mar-22	understanding with any person on the basis of the said last document they shall do so at their own risk, cost and	EXTRACT OF UNAUDITED	CONSOLIDATED FINANCIAL	RESULTS FOR TH	E QUARTER	ENDED 30		022 (Rs. in L
Unaudited Unaudited Audited (Restated)* (Restated)*	consequences. Our clients and/or Capt, Xerxes K. Wadia and Mrs. Gulshan	Sr	Particulars		Qu 30.06.2022 3	arter Ender	d	Year E
ncome from operations 1,462,34 792,31 4,643 23 roll/(Loss) for the period 28.37 (9.57) 67.46	Xerxes Wadia and/or any person claiming by and/or under Capt. Xerxes K. Wadia and Mrs. Gulshan Xerxes Wadia				Unaudited)	(Audited)	(Unaudited (Refer not	) (Aud
Intersection         28.31         (9.57)         67.46           press (Charge)         Credit         (5.34)         9.15         26.05           press (Charge)         Credit         (5.34)         9.15         26.05           coss) for the periodyear         23.03         (0.42)         9.35	shall not be required to compensate and/or indemnify such person for any	1 Total income from operations			4.456.60	no, 15) 13.004.55	no. 15) 4.018.7	4 24.6
Comprehensive Income (net of tax) 0.22 0.20 (2.64)	loss or damage suffered and/or caused to them. SCHEDULE OF THE PROPERTY	2 Profit/(Loss) before exceptional ite     3 Profit/(Loss) before tax			(3,472.55) 4.749.28	11.486.84 60.475.83	(5.358.82	(5,8 ) (5,8
p equity share capital - Face value Rs 10I- per Share 144.51	All rights, title and interest in 5 (Five) fully paid-up equity shares each of Rs	A Net profit/(Loss) after Tax from Co     Profit/(loss) from Discontinuing Op     A Net profit/(loss) from Discontinuing Op	ntinuing Operations perations		4.735.57 (0.39)	60 477.80 (294.69)	(5,405.80	) 43. ) (7
s (excluding Revaluation Reserve) 651.45 per Share of Rs. 10°- each Basic & Dhuted (for continued and ued operations) (not annualised for the quarters)	50/- (Fifty) aggregating to Rs.250/- (Rupees two hundred and fifty only) comprised in Share Certificate No. 17	6 Net profit/(Loss) after Tax     7 Total Comprehensive Income for t     (after tax) and other Comprehensi	he period [Comprising Profit/(Lo	ss) for the period	4 735.18 4 733.33	60.183.11 60.179.66	(5.408.57 (5.407.38	) 42.3
and Diluted EPS (in Rs.) 159 (0.03) 6.47	bearing distinctive numbers 86 to 90 (both inclusive) issued by the Rajgir	8 Paid-up equity share capital (Face 9 Other Equity	value per share Rs. 2/-)		5.245.52	5 245.52	5.245.5	2 5.
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022	Chambers Co-operative Housing Society Ltd. and incidental thereto Office premises bearing Unit no. 19	10 Earnings Per Share (of Rs. 2 each - Basic	) (for continuing and discontinue	ed operations)	1.81*	22.95*	(2.06)	. 25,
Rs. In Crore Quarter ended Year ended		- Diluted *not annualised			1.81*	22.95*	(2.06)	
Particulars 30-Jun-22 30-Jun-21 31-Mar-22 Unaudited Unaudited Audited	as 'RAJGIR CHAMBERS' situate at 12/14 Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400 023 and in the registration sub-district of	Note : 1 The above is an extract of the det (Listing Obligation and Directory)	ailed format of Quarterly Sinese	iel Desulta Electurit				
(Restated)*         (Restated)*           ncome from operations         1.462.34         793.29         4.643.03	Mumbai bearing C.S. No. 220 of Fort Division and assessed by the Assessor	the quarter ended 30th June, 2022						
t Profit/(Loss) for the period 34.39 65.95 148.67 x Expense (Charge) / Credit (5.63) 9.93 25.47	and Collector of Municipal rates and taxes under 'A'Ward No. A-1068. Dated this 11th day of August, 2022.	<ol> <li>The above unaudited financial resulted on 10th August, 2022.</li> </ol>	Its have been reviewed by the	Audit Committee an	nd approved by	the Board	of Directors	at its m
onf/l(Loss) for the penod         28.56         75.87         174.14           ther Comprehensive Income (net)         0.26         0.34         (1.70)	ADV. KARTIKEYA DESAI M/s. Kartikeya & Associates.	3 The figures of the corresponding p June: 2021 has been restated to g	evious period / year have been	rearranged / regrou	ped. The finan	offuser lain	for the quar	Ind 21ct
tal Comprehensive Income 28.81 76.21 172.44		2022 are the balancine former	ve impact of the NCLT order for ween audited for	Scheme of Arrange	ement The figu	use for the	quarter end	ind bian
uty Share Capital - Face Value Rs. 10/- per Share 144.51	Advocates and Solicitors, High Court 105 Arcadia, 195 NCPA Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	2022 are the balancing figures bet 31st December, 2021.	ve impact of the NCLT order for ween audited figures of the full i	Scheme of Arrange	ement. The fig estated year to	ures for the date figure	t of Board o	months of Diract
uly Share Capital - Face Value Rs. 10- per Share 144 51 serves (excluding Revaluation Reserves) 579 90 is and diuted examings per share (in Rs.) 1,98 5.25 12.05	105 Arcadia, 195 NCPA Marg.	<ul> <li>Place : Mumbai</li> </ul>	ve impact of the NCLT order for ween audited figures of the full t	Scheme of Arrange	ement. The fig estated year to	ures for the date figure d on behalt	t of Board of Ar	months of Diract shiya L
uity Share Capital - Flace Value Rs. 10- per Share         144 51           saves (accluding Revaluation Reserves)         579 90           size and Olized examings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           der Note 2 for Restatement on account of amagamation BR:         BR:         1.98         5.25	105 Arcadia, 195 NCPA Marg.	2022 are the balancing injures ber 31st December, 2021. Place : Mumbai Date : 10th August, 2022	ween audited ligures of the full t	Scheme of Arrangi inancial year and re	ement. The fig estated year to For an	ures for the date figure d on behalt Chairma	t of Board o	of Diraci shiya L
pair Share Capital - Face Value Rs. 10- per Share         144 51           per Share         144 51           pair Share Capital - Face Value Rs. 10- per Share         575 90           pair And Mark Alland Reserves)         575 90           pair And Mark Alland Reserves)         525           pair Andre Sam Share (in Rs.)         1.98           pair Andre Sam Share (in Rs.)         1.98           pair Sam Share (in Rs.)         1.98      <	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Point, Mumbai - 400 021	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022		Scheme of Arrange inancial year and re	ement. The fig estated year to For an <b>For an</b>	ures for the date figure d on behalt Chairma	es upto nine f of Board o Ar in and Mana C	months of Diract shiya L Ajay S aging D NN : 002
gally Share Capital - Face Value Rs. 10- per Share         144.51           Isserves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           isserves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           isserves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           isserves (encluding Revaluation Reserves)         1.98         5.25         12.05           Value National Section Researcher of analigamation         1.98         5.25         12.05           Value Section Researcher of analigamation         Value Researcher of Analigamation Researcher of these Results         Researcher of Analigamation Advector Maker Technics and Approved by the Board of Directors at its meeting held on Unity Analism Value Cambrid Analism Value C	105 Arcadia, 155 NCPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Munbai Date : 10th August, 2022 THACKER AND Bate : 10th August, 2022 CMR gel. Office Broglal Hargonicas Building Tel. No: 91-224553331; Fed	ID COMPA La 10604 1878-LO0003 La 10604-1878-LO0003 Mazzania Fizor, 1820, K. Dubash I Mazzania Carto J. Status	Scheme of Arrange inancial year and re NY LIN Marg, Fort, Mumbai - 44 ww.fhacker co.in	ement. The fig astated year to For an <b>For an</b> <b>MITE</b> 20 001	ures for the o date figure d on behalt Chairma	es upto nine f of Board o Ar in and Mana C	months of Dirac rshiya L Ajay S aging D NN : 002
gally Share Capital - Face Value Rs. 100-per Share         144.51           Besenves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           Besenves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           Besenves (encluding Revaluation Reserves)         579.90           Besenves (encluding Revaluation Reserves)         1.98         5.25         12.05           Value Name         Value Name         1.98         5.22         12.05           Value Name         Value Name         Advice Name         Na	105 Arcadia, 155 NCPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regd. Office: Bhogli Happondas Building TATEMENT OF CONSOLI TATEMENT OF CONSOLI	La company audited ingures of the full La company for the full La constantia Prop. Cococos Mazzanara Proz. 1850, K. Dubash I It: Baberd Phadecocor, Webster to DATED UNAUDITE Company for the full of the	Scheme of Arrange inancial year and ro NY LIN Aarg, Fort, Mumbai - 4 D FINANCI/	ement. The fig estated year to For an <b>MITE</b> 20 001 AL RESU	ures for the o date figure d on behalt Chairma	es upto nine f of Board o Ar in and Mana C	months of Dirac rshiya L Ajay S aging D NN : 002
gally Share Capital - Face Value Rs. 10- per Share         144.51           servers (encluding Revealution Reserve)         5/19.90           abit and diluted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.22         12.05           Wer Weiz V De Restationen freisonaum of analganation         1.98         5.22         12.05           Wer Weiz V De Restationen freisonaum of analganation         1.98         5.22         12.05           Wer Weiz V De Restationen freisonaum of analganation         1.98         5.22         12.05           Weiz Meiz Z The Audors shave cameed out al Introd Revevor Ofthese Results         Perioden file onthin National Company Law Thomail (NCL) for Scheme of analganation between Advane Traders and Reators         Perioden file onthin National Company Law Thomail (NCL) for Scheme of analganation between Advane Traders and Reators           Market Limite 2, analysis and a maintogroup (Introde that been file within Registrator Companies, Munda, Markettru, on National Scheme at analysis ong United Introde analysis and the advance of companies, Munda, Markettru, on National Scheme at analysis ong United Introde Advance Advance at analysis ong United Introde Advance Advance at analysis ong United Introde Advance Adva	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regd. Office: Bhogli Happondas Building TATEMENT OF CONSOLI TATEMENT OF CONSOLI	ID COMPA La 10604 1878-LO0003 La 10604-1878-LO0003 Mazzania Fizor, 1820, K. Dubash I Mazzania Carto J. Status	Scheme of Arrange inancial year and ro NY LIN Aarg, Fort, Mumbai - 4 D FINANCI/	AL RESU (₹ in lakh	ures for the o date figure d on behalt Chairma D ULTS s, unless	s upto nine t of Board of Ai in and Mann C	months of Diract shiya Li Ajay S aging Di NIN : 002
with Share Capital - Face Value Rs. 10:- per Share         144 51           serves (paculation, Research)         579 90           alc and diluted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           alc and diluted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           Ber Allow 2 for Restatement on account of analgamation         85         19.00         19.00         19.00         19.00         19.00         12.05           Periods divide earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05         12.05           Bes divide earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05         12.05           Periods Restatement on account of analgamation         85.1         19.00         19.00         19.00         10.00         19.00         19.00         19.00         10.00 <td>105 Arcadia, 155 NCPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021</td> <td>Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regd. Office: Bhogli Happondas Building TATEMENT OF CONSOLI TATEMENT OF CONSOLI</td> <td>La company audited ingures of the full La company for the full La constantia Prop. Cococos Mazzanara Proz. 1850, K. Dubash I It: Baberd Phadecocor, Webster to DATED UNAUDITE Company for the full of the</td> <td>Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg. Fort. Numba: -4 Wulhacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 30.06.2022</td> <td>ement. The figure to For an <b>VIITE</b> 20 001 AL RESU 2 (₹ in lakh Quarter end 31.03.2022</td> <td>d on behalt Chairma D ULTS s, unless led 30.06.</td> <td>t of Board of Arian and Mana s otherwi 2021 3</td> <td>months of Diract rshiya Li Ajay S aging Di NN : 002</td>	105 Arcadia, 155 NCPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regd. Office: Bhogli Happondas Building TATEMENT OF CONSOLI TATEMENT OF CONSOLI	La company audited ingures of the full La company for the full La constantia Prop. Cococos Mazzanara Proz. 1850, K. Dubash I It: Baberd Phadecocor, Webster to DATED UNAUDITE Company for the full of the	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg. Fort. Numba: -4 Wulhacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 30.06.2022	ement. The figure to For an <b>VIITE</b> 20 001 AL RESU 2 (₹ in lakh Quarter end 31.03.2022	d on behalt Chairma D ULTS s, unless led 30.06.	t of Board of Arian and Mana s otherwi 2021 3	months of Diract rshiya Li Ajay S aging Di NN : 002
uty Stee Capital - Face Value Re: 10- per State         144 ST           evers (social of, Revalution Resense)         575 99           alc and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.28         12 06           bit and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.28         12 06           bit and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.28         12 06           bit and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12 06           bit and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12 06           bit and dilued earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12 06           bit and company (law Tribunal (hCL) for Scheme of analgemation between Acore Triders and Reabors and Parators	105 Arcafa, 155 NDFA Marg Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regd. Office: Rhoglet Huspanicas Building Tat. Na: 91-22-4355333; Edu TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars trations	L21098041878PLC00003 L21098041878PLC00003 L21098041878PLC00003 L21098041878PLC00003 L21098041878PLC00003 L21098041878PLC00003 L21098041878PLC0003 L21098041878 L2109	Scheme of Arrangi inancial year and re NYY LIIN Arg. Fort. Mumbai - 44 ww.lhacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022	white the figure of the figur	d on behall Chairma D ULTS s, unless ied 30.06. (UNAUE	t of Board of Arian and Mana s otherwi 2021 3	months of Diract rshiya Li Ajay S aging Di NN : 002 <b>CUJIS</b> see sta ear enco 1.03.20 AUDITE
uty Stee Capital - Face Value Re: 10- per State         144 ST           evers (actuding Revalution Reserves)         575 90           ack and during a per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           ack and during a per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           ack and during a per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           ack and during a per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           ack and during a per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           ack one solution bean invivous by the Add Committee and approved by the Board O Directors at Its meeting held on 0 <sup>4</sup> August 2022. The Addition the event whether and INCL To resolution is a limited frame of the addition of the addition and company. Latit The Addition of the addition and Company. Latit The Addition of the addition of Additional Company. Latit The addition of Additional Company. Latit The Addition of Addition Research (INCL To Additional Company. Latit The Company Insteam additional Addition of the additional Company. Latit The Company Insteam additional Company. Latit The Company Insteam additional Company. Latit The Company Insteam additional Company. Latit The Company. State The	105 Arcada, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place: Mumbai Date: 10th August, 2022 THACKER AN Reg Office: Bhoglal Hargowinds Bull Tel No: 91-224953333; Fel TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars relations period (before tax and pior period i	L21090MH1878FLC00003 Mezaning Floor, 1820, K. Dubash Mezanica Strand Strand Strand DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup>	Scheme of Arrange NY LIN Arro, Fort, Mumbai - 4 ww.Inacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.22 63.52	For an For an MITEE 20001 AL RESU 2 (K in lakh Quarter end 31.03.2022 (AUDITED) 299.66 128.15	ULTS S, unless ied 30.06. (UNAUC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	s otherwith s otherwith 2021 3: DTED) (0 55 57 54.09	months of Diract shiya Li Ajay S aging Di NIN : 002
ly blate Capital - Face Value Rs. 100- per Share expected activity of the Social - Face Value Rs. 100- per Share expected to the Social - Social - Face Value Rs. 100- per Share expected to the Social -	105 Arcadia, 155 NDPA Marg Nariman Pont, Mumbai - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AN Regio Office : Nogli Hargonidas billión TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars realized (before tax and pior period j a period before Tax (after pior period j	L21090MH1878FLC00003 L21090MH1878FLC00003 Mezaning Floor, 1820, K. Dubash 1 Il Indexe flhacescan; Website DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup>	Scheme of Arrange nancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 ww.thatker.coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 51.54	For an For an For an MITEE 20001 AL RESU 2 ((I in lakh Quarter end 31.03.2022 (AUDITED) 299.66 128.15 128.15 116.04	Utes for the date figure d on behalt Chairma D ULTS s, unless ied 30.06. (UNAUC 15 5 6 4 4	s otherwit 2021 3 DTED) ( 55.5 54.09 17.95	months of Diract Ajay S ging D U U U S S S S S S S S S S S S S S S S
y Bate Capital - Face Value Rs 100- per Share 444 57 were including Revealation Reserves and dilutation Revealation Reserves and dilutation Revealation Revealation and the 2 for Restatement on account of analgamation were Note 2 for Restatement on account of analgamation and account of analgamation account of anal	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibal - 400 021	Pince : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKERRAN Reg. Office: Endgla Hagonidas Building Tot: No: 912-245353 TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars rations a period (before tax and prior period i a period attar Tax associates associates	International Action of the full service of th	Scheme of Arrange Innancial year and re NY LIN Marg. Fort. Mumbai - 44 ww.lhacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52	For an For an MITE 00 001 AL RESU (( in lakh Quarter and 31.03.2022 (AUDITED) 299.66 128.15 128.15	A solution of the solution of	s otherwi 2021 3: 01750 (54.09) 54.09	months of Diract shipa L Ajay S aging D U IN: 002 C U IS ear enu 1.03.20 0.03.20 S 4.03.20 S 5.43 S 4.43 S 5.4 S 5.4 S 5.4 S 5.4 S 5.4 S 5.43 S 5.4 S 5.43 S S 5.55 S S S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.55 S 5.5 S 5.55 S 5 S
y State Capital - Face Value Rs 100- per Share 444 51 575 90 575 90 5 and dilutation Reserves 575 90 5 and dilutation 575 90 5 and diluta	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibai - 400 021	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022 THACKERRAN Reg. Office Broglal Hargonicas Building Tet: No: 91-224/95530 TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars rations a period before tax and prior period i period after Tax associates	ID COMPACT L21096WH1978PLC00003 Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash I Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> lerns) items)	Scheme of Arrange NY LIN Arg, Fort, Mumbai -4 ww.fnacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 63.52 1.34 298.82	For an For an For an ALRESU 20001 ALRESU 2(f in lakh Quarter end 31.03.2022 (AUDITED) 299.66 128.15 128.15 128.15 118.04 119.65	ULTS S, unless Hed (UNAUC 15 5 6 6 19 19 30 6 19 30 19 30	s otherwith s otherwith s otherwith 2021 3: DTED) ( 39 57 54.09 54.09 55.94	Months of Diract Ajay S aging Di NN : 602 CU ) S aging Di S aging Di NN : 602 CU ) S aging Di S aging Di S agin Di S agin Di S agin Di S agin Di
Ny Bate Capital - Face Value Rs 100- per Share environment of the service of the	105 Arcafa, 155 NDPA Marg Nariman Pont, Mumbai - 400 021	And Developmental Advances of the Section of Section 2012 and the Sectio	ID COMPACT L21096WH1978PLC00003 Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash I Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> lerns) items)	Scheme of Arranginancial year and re           NYY LIN           Marg. Fort. Mumbal - 4:           ww.Inacker.co.in           D FINANCI/J           JUNE, 2022           (UNAUDITED)           163.52           63.52           51.54           51.54           51.54           50.57	ement. The figure estated year to estated year to be stated year to be of the stated year to be of the stated year to be of the state o	Chairma Chairma D ULTS s, unless ied 30.06. (UNAUC 55 55 4 4 19 38 62	s otherwill s otherwill s otherwill 2021 3 DTED) ( 59 57 54.09 17.95 55.94 31.17	months of Diract Alay S aging Dir W J S C W J S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
State: Capital - Race Value Rs. 100-per State         144 st           respective (and construction Reserves)         5,75 gp)           and distutation Reserves)         5,25 12 08           r Note 2 for Restatement on account of analgamation         5,25 12 08           above results how been revised by the AuX1 Committee and approved by the Boold of Directors at its meeting held on Aux000000000000000000000000000000000000	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibal - 400 021	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AND Reg. Office: Endogla Hagondas Belling Tot. No: 912-24553 TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars Particulars rations a period (before tax and prior period i period after Tax associates noome for the period noome for the period	ID COMPACT L21096WH1978PLC00003 Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash I Mezzanie Floor, 1820, K. Dubash DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> lerns) items)	Scheme of Arrangenancial year and resident of the second	ement. The figure estated year to estated year to be stated year to be of the state of t	LTS S, unless led (UNAUC) (UNA	s otherwite s otherwite s otherwite 2021 3 07ED) (0 59 57 44.09 47.95 54.09 47.95 54.09 47.95 54.09 47.95 54.09 47.95 55.06 10.88 -	months of Diract Ajay S See stat ear end 1.03.20 AUDITEI 855 354 364 292 643 443 1,379 10. 8,490.
Shere Capital - Roox Value Rs. 100- per Share         144 st           Se (solution, Re-Audican Reserves)         5,75 go)           and diluted annings per share (in Rs.)         1,58         5,25         170 go)           Note 2 for Restatement on account of analganation         30000         158         5,25         170 go)           Note 2 for Restatement on account of analganation         30000         158         5,25         170 go)           Note 2 2 the Audions have animed out a Limited Revew of these Result.         Audions have animed out a Limited Revew of these Result.         Audion the average animed out a Limited Revew of these Result.           3 202 The Schemes Table RMC and Musice Transe Limited (MCF) with the parent company MCFL, followed at a certified copy of the order has been filed with the Respective Charge have been anyowed by 10 - April 3, 2022 and Schemes made detaxes from the appointed date Accounting to the analyonation of the Advin Table and accounted on a scheme time the formal statements Accounting the analyonation of the advincement and accounted on a scheme in the formal statement Accounting the analyonation of the advincement and accounted on a scheme time the formal statement Accounting the analyonation of the advincement and accounted the advin and accounted on a scheme in the formal statement Accounting the analyonation and the advincement analyonation of the formal statement Accounting the advincement analyonation of the advincement analyonation of the advincement analyonation at the advincement analyonation and the advincement analyonation of the Advin and the advincement analyonation at the Advin advincement advincement analyonation at the Advin advincement and	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021         Variman Pont, Mumbai - 400 021         THACKER         Sr.         No.         1       Total Income from opp         Net Profit/(Loss) for the         3       Net Profit/(Loss) for the         4       Net Profit/(Loss) for the         5       Share of profit/(loss) of         6       Other comprehensive in         7       Total Comprehensive in         9       Reserves (capitidia)         9       Reserves (capitidia)         9       Reserves (capitidia)         10       Earning per Equity shan         Notes:       ************************************	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 THACKER AU Reg. Office: Bhogla Hargoninas Building Tel: No: 19:24:9553 TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars Particulars a period before tax and prior period i a period before tax and prior period period after Tax associates necome for the period Comprising Pri- associates necome for the period Comprising Pri- associates necome for the period Comprising Pri- associates necome for the period Comprising Pri- associates and Other Comprehensive availuation Reserve as shown in the i of previous year) re : Basic and Diluted (₹)	Audited Ingures of the full ID COMPAC L21093WH1978FLC00003 Mezzanie Floor, 1920, K. Dubash 1 Mezzanicz, mic Webliet COMPACTION (1920, K. Dubash 1 Mezzanicz, mic Webliet COMPACTION (1920, K. Dubash 1 Mezzanicz, mic Webliet Mezzanicz, mic	Scheme of Arrange nancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 ww.Instever coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 6	ement. The figure estated year to estated year to be stated year t	uiures for the date figure dat	s otherwill so oth	months of Diract Ajay S Sise sta ear enc (.03.20) AUDITE 855 354 364 292 643 1,379 10 8,490 86
Shere Capital - Face Value Rs. 100-per Share         144 s1           ex (exclude, Revaluation Resumas)         5,75 90           and distude normalization Resumas)         5,25 1205           rNet 2 for Restatement on account of analgamation         5,25 1205           boor results have been revised by the AuXI Committee and approach by the Board of Directors at its meeting held on August 2022 TheAudiots have careful on a Limited (Merceword) held Res Result.           August 2.22 TheAudiots have careful out at Limited Netword Directors at Use meeting held on August 2022 TheAudiots have careful out at Limited Netword Directors at Use meaning held on the Res Result.           August 2.22 TheAudiots have careful out at Limited Netword Directors at Use meaning held on Netword Exclusion 2004 and Stand Standard Merceword Directors at Use meaning waition of NRUE and Mercemonia NULT 10 re Schward and The Company has been approved by 30,202 res Schward and a confinited on the appointed due of MRUE ad Markand Carefue Limited (MRUE) with the Repeater of Company August and a confinited on the appointed due of NRUE ad Markand Carefue Limited (MRUE) ad Markand The appointed due of MRUE ad Markand Carefue Limited (MRUE) ad Markand Carefue Limited (MRUE) ad Markand Schward Limited (MRUE) ad Markand Carefue Limited Markand Carefue Limited (MRUE) ad Markand Carefue Limited MRUE) approaced Schware Limited Markand Carefue Limited Markand Carefue Limite	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021         Image: An intermediate and the second s	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     PLACE : Mumbai Date : 10th August, 2022     PLACE : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     period (before tax and prior period i period (before tax and prior period i period theore Tax (after prior period period theore tax and Other Comprehensive associates and Other Comprehensive availuation Reserve as shown in the to / previous year)     te : Basic and Diuled (8)	Ween audited injures of the full	Scheme of Arrange           NY LIN           Marg. Fort. Mumbal - 4           www.thacker.colin           D FINANCI/J           JUNE, 2022           (UNAUDTED)           163.52           63.52           51.34           298.62           (50.37)           299.79           10.88           32.19	ement. The figurement of the figurement of the stated year to estated year to be stated year to be sta	d on behall Chairma D ULTS s. unless ted 30.06. (UNAUC 15 6 6 7 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9	s         otherwise           s         otherwise           s         otherwise           y         y           y <td>months of Dirac Ajay S Sise sti: ear en 1.03.22 443 443 443 443 1.375 10 8,490 86 443</td>	months of Dirac Ajay S Sise sti: ear en 1.03.22 443 443 443 443 1.375 10 8,490 86 443
by Bate Capital - Face Value RS. 10:- per Share         144 st           week lockuld in Parkalizion Resensory         575 90           is and dinued earnings per share (in Rs.)         1.96         5.25         12.06           Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of analystanzion         1.96         5.25         12.06           Start of Web 2 for Restatement on account of acto analystanzion acto account on account of acto account Restart on Account Restart Account Restart on Account Restart on Account Restart on Acco	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibai - 400 021         Image: An analysis of the second secon	Place: Wumbai Date: 10th August, 2022     Place: Wumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     realions     period (before tax, and pior period i period before Tax (after pior period i period defore tax, and pior period i period thefore tax, and pior period is period tar tax, associates and Other Comprehensive associates and Other Comprehensive seveluation Reserve as shown in the of previous year) te : Basic and Diluted (t) ts were reviewed and recommended the refeguiation 33 of the SEBI (Listing made by the Company to Reserve 1	week audited injures of the full	Scheme of Arrange           NY LIN           Arror, Fort, Mumbal: -4           www.fnacker.co.in           D FINANCI/J           JUNE, 2022           (UNAUDITED)           163.52           63.52      <	ment. The figure estated year to estate year toe year to estate year to estate year toe year to estat	d on behall Chairma D ULTS S, unlessed d 30.66. (UNAUC 15 6 6 19 38 62 1 1 2 2 2 0 of Directorio	st opto-mer           s otherwww           s otherwww           y	months of Diraci Ajay S isse stat ear enni 1.03.22 643 354 292 643 31,379 10 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,600 8,000 8
ut/sites Capital - Face Value Re. 10:- per Share         144 ST           exeres (actuicing Prevation Reserves)         575 90           ac and during per share (in Re.)         1.98         5.25         175 90           ac and during per share (in Re.)         1.98         5.25         175 90           ac and during per share (in Re.)         1.98         5.25         175 90           Bit Adverse table have been viewled by the Advid Committee and approach by the Board of Directors at its meeting held on 0° August, 3022. The Advidors the common bankhere of analgameton between Adver Tradem and Reatons for Markana Company LM Tradem and Reatons for Markana Company LM Tradem and Reatons for a divis have main company MGH. I dolved by a manigamation or MGH and Mutado Tire Games Limited (MC) (is Scheme is Advert Tradem and Reatons 0° August, 32, 3022. The Advidors them is made detable of Mutado (MC) (is Scheme is Advert Tradem and Reatons 0° August, 32, 3022. The Advidence Games Limited (MC) (is Scheme is Advert Tradem and Reatons 0° August, 32, 3022. The Advidence Games Limited (MC) (is particular to a scheme is Advert Tradem and Reatons 0° August, 32, 3022. The Advidence Games Limited (MC) (is particular to a scheme is Advert Tradem and Reatons 0° August, 100, 32, 3022. The Advidence Games Limited (MC) (is particular to a scheme is advert doll advert 100 (is 2022)           All SV22. The Advident Tire advert adver	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021         Image: State of the stat	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     real.ong : Constraints period (before tax and prior period i period defore tax (after prior period i period defore tax (after prior period i period defore tax (after prior period i period after Tax associates norme for the period come for the period composition and Other Comprehensive valuation Reserve as shown in the of previews year) re : Basic and Diuled (?) ts were reviewed and recommended th re of NBC( busces as director') has re of NBC( busces as dir	ID COMPACT L21096WH1878PLC00003 Mezzanie Floor, 18620, K. Dubash I Mezzaniczani, Webater DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> terns) items) Aff for the period (after tax); a Income (after tax); b Income (after tax); y the Audit Committee and t Colligations and Disclosure Bank of India (RBP), for vols s cancelled its Certificate of	Scheme of Arrange NYY LIN Arrg, Fort, Mumbal - 4 ww.Inacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.22 63.52	ment. The figure estated year to estate year toe year to estate year to estate year toe year to estat	d on behall Chairma D ULTS s, unlesses d 30.06. (UNAUC 15 5 6 6 4 4 19 38 8 6 2 1 1 1 5 5 6 6 1 15 15 15 15	s         other         other <thoter< th="">         other         other</thoter<>	months of Dirace Ajays Willies studies ear en 1.03.20 AUDITE 8555 3544 292 643 4437 10 8,490 86 643 443 1,379 10 8,490 86 643 443 443 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Jry Shee Capital - Face Value Rs 10- per Share         144 51           week (acutor) Revaluation Resens)         5,75 90           is and divide amings per share (in Rs)         1,96         5,25         12.05           is and divide amings per share (in Rs)         1,96         5,25         12.05           is and divide amings per share (in Rs)         1,96         5,25         12.05           is and divide amings per share (in Rs)         1,96         5,25         12.05           is and on results have been revised by the Audi Committee and approved by the Bord of Directors at its meeting field on directors fled with have and company. MCR-1 of lowed is a limited Review Offsere Revisis.         Acutors 2,022. The Audion Names camed etclare the Tomes Paceus (In Review) is an approved by CR-1 offsere and Review Offsere Revisis.         Acutors 10,000 Field Start Manaeshing of Mulana Global Finance Limited (UKEL) with the parent company. MCR-1 offsere and Review) is a per the mean approved by 20.22. The Audion Names and etclare the mean approved by CL and acentified copy of the order has been filed with the Reparent solution is a solution of the order has a been filed with the Reparent solution is a solution of the order has a been filed with the Reparent solution is a per solution of the order has a been filed with the Reparent solution is a been filed with the Reparent solution is a per solution of the order has a been filed with the Reparent solution approved by CL To Review (In Review Charter and Review Chartereview (In Review Charter and Review Charter and Rev	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumbai - 400 021         Image: State of the stat	Place: Wumbai Date: 10th August, 2022     Place: Wumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     realions     period (before tax, and pior period i period before Tax (after pior period i period defore tax, and pior period i period thefore tax, and pior period is period tar tax, associates and Other Comprehensive associates and Other Comprehensive seveluation Reserve as shown in the of previous year) te : Basic and Diluted (t) ts were reviewed and recommended the refeguiation 33 of the SEBI (Listing made by the Company to Reserve 1	ID COMPACT L21096WH1878PLC00003 Mezzanie Floor, 18620, K. Dubash I Mezzaniczani, Webater DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> terns) items) Aff for the period (after tax); a Income (after tax); b Income (after tax); y the Audit Committee and t Colligations and Disclosure Bank of India (RBP), for vols s cancelled its Certificate of	Scheme of Arrange NYY LIN Arrg, Fort, Mumbal - 4 ww.Inacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.22 63.52	ment. The figure estated year to estate year toe year to estate year to estate year toe year to estat	d on behall Chairma D ULTS s, unlesses d 30.06. (UNAUC 15 5 6 6 4 4 19 38 8 6 2 1 1 1 5 5 6 6 1 15 15 15 15	s         other         other <thoter< th="">         other         other</thoter<>	months of Dirace Ajay S Will See st. ear en 1.03.2( AUDITE 855( 354) 299 643 443 1,375 10 8,490 8,40
Jry Shee Capital - Face Value Rs 10- per Share         144 ST           week (acutor) R mutuation Represent)         575 90           is and diude amings per share (in Rs.)         1.96         5.25         175 90           is and diude amings per share (in Rs.)         1.96         5.25         175 90           is and diude amings per share (in Rs.)         1.96         5.25         175 90           is and diude amings per share (in Rs.)         1.96         5.25         175 90           is and own results have been reviewed by the Addi Committee and approach (In CFL) is in the parent company MGFL, followed (In CFL) is in the analyzamicin (IN CFL) is of Share Review (In CFL) is in the parent company MGFL, followed (In CFL) is in the analyzamicin (IN CFL) and (In CFL) is in the analyzamicin (IN CFL) and Mixad (In CFL) is in the company has been reviewed by 1.202. The Share mandparenticin (IN CFL) and Mixad (In CFL) is in the analyzamicin (IN CFL) is in the company has been reviewed by 1.202. The Share mandparenticin (In CFL) and Mixad (In CFL) is in the company has been reviewed by 1.202. The Share mandparenticin (In CFL) and Mixad (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) and Mixad (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has balance in the adjoint (In CFL) is in the company has b	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibai - 400 021         Image: An International Control Contrector Contrecontrol Conternation Control Control Control Control C	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particutars     real one: 9:24'455533: End Particutars     real one: 9:24'45554     Particutars     real one: 9:24'4554     Particutars     real one: 9:25'4554     Particutars     real one: 9:25'455     Particutars     rean one: 9:25'455     Particutars     real one: 9:25'455     Particu	ID COMPACT L21096WH1878PLC00003 Mezzanie Floor, 18620, K. Dubash I Mezzaniczani, Webater DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> terns) items) Aff for the period (after tax); a Income (after tax); b Income (after tax); y the Audit Committee and t Colligations and Disclosure Bank of India (RBP), for vols s cancelled its Certificate of	Scheme of Arrange NYY LIN Arrg, Fort, Mumbal - 4 ww.Inacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.22 63.52	ment. The figure estated year to estate year toe year to estate year to estate year toe year to estat	d on behall Chairma D ULTS s, unlesses d 30.06. (UNAUC 15 5 6 6 4 4 19 38 8 6 2 1 1 1 5 5 6 6 1 15 15 15 15	s         other         other <thoter< th="">         other         other</thoter<>	months of Diract Ajay S ajang Divisitya L Ajay S againg Divisitya L ear end 1.03.20 AUDITE 855 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364
ut/sites Capital - Face Value Re. 10:- per State         144 Str           evers (actuding Revalution Resense)         575 90           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and duted earnings per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and dute darning per share (in Rs.)         1.98         5.25         12.05           abc and dute darning obc and the dute of dutes and approved by the Board of Directors at the and dutes of the share per share and dute share and dute share and dute share per share and share per share and dute share per share and dute share and dute share and dute share per share and dute share andute share share and dute share and dute share and dute share and	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Mumba - 400 021 THACKER THACKER AND CO. LTD. S Sr. No. 1 Total Income from ope 2 Net Profit/Loss) for the 3 Net Profit/Loss) for the 3 Net Profit/Loss) for the 4 Net Profit/Loss) for the 5 Share of profit/Loss) for the 5 Share of profit/Loss) for the 5 Share of profit/Loss) for the 6 Other comprehensive II 9 Reserves (excluding Re 4 Audited Balance Sheet 10 Earning per Equity sha Notes: 1. The above Innancial result 2. The Limited Review und Statutory Auditors. 3. Pursuant to an application license, RBI vide Ordersite. 3 The donsolidated Innancial Standards) Rules. 2015 (I extent applications.	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai Particulars     Particulars     Particulars     period (Comprising Pro- associates     noome for the period (Comprising Pro- noome for the period (Comprising Pro- the for the company to Reserve 1 subsidiary Company     mitted     Subsidiary Company	ID COMPACT L21096WH1878PLC00003 Mezzanie Floor, 18620, K. Dubash I Mezzaniczani, Webater DATED UNAUDITE RTER ENDED 30 <sup>TH</sup> terns) items) Aff for the period (after tax); a Income (after tax); b Income (after tax); y the Audit Committee and t Colligations and Disclosure Bank of India (RBP), for vols s cancelled its Certificate of	Scheme of Arrange NYY LIN Arrg, Fort, Mumbal - 4 ww.Inacker.co.in D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.22 63.52	ment. The figure estated year to estate year toe year to estate year to estate year toe year to estat	d on behall Chairma D ULTS s, unlesses d 30.06. (UNAUC 15 5 6 6 4 4 19 38 8 6 2 1 1 1 5 5 6 6 1 15 15 15 15	s         other         other <thoter< th="">         other         other</thoter<>	months of Diract Ajay S ajang Divisitya L Ajay S againg Divisitya L ear end 1.03.20 AUDITE 855 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364
Jry Shee Capital - Face Value Re State         144 ST           weer leaduring Prevates (in Rs.)         1,58         525         12 05           dic and divert and state of the state of the state of antiparticle and approach of the Board of Directors at its meeting held on the state of the state	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Muniba - 400 021 THACKER AND CO. LTD. S Sr. No. 1 Total Income from ope 2 Net Profit/Loss) for thi 3 Net Profit/Loss) for thi 4 Net Profit/Loss) for thi 5 Share of profit/(loss) of 6 Other comprehensive I 7 Total Comprehensive I 8 Share of profit/(loss) of 8 Equity Share Capital 9 Reserves (excluding Rr Audited Balance Sheet 10 Earning per Equity sha Notes: 1. The above financial result 2. The Limited Review undt Statutory Auditors. 3. Pursuant to an application 15 The donseling Rule Order d 4. Consequent upon surrent Standards) Rules, 2015 (I extent application.	Place : Numbai Date : 10th August, 2022 Place : Numbai Date : 10th August, 2022 Place : Mumbai Date : 10th August, 2022 Place : Constantion of the second Tail No: 9:24:9533316 FOR THE QUA Particulars Particulars Particulars period before tax and pior period i a period before tax and pior period i a period before tax and pior period i a period before tax (after pior period period after Tax associates neome for the period come for the period come for the period come for the period Comprising Pri- associates neome for the period come for the period to the period Dituled (₹) Is were reviewed and recommended b ar Regulation 33 of the SEBI (Listing n made by the Company to Reserve [a tated November 30, 2018 (Order) ha far of NBFC licence, as aloresaid, th nd AS) prescribed under Section 133 lis results include results of:- <u>Refetionship</u> imited <u>Subsidiary Company</u> nited Listing	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163 28 63.52 51.34 296.82 (50.37) 299.79 10.88  32.19 aken on record b Requirements) Fi and other recogn	ement. The figurement is the year to exist a very set to ever to exist a very set to ever to exist a very set of the exist a v	d on behall Chairma D ULTS s. unless teid 30.06, (UNAUC 15 5 6 6 19 30 6 2 1 2 0 0 Director 015 has bu niking Fina	s         other         other <thoter< th="">         other         other</thoter<>	months of Diract Ajay S sise state ear end 1.03.20 AUDITE 855 354 292 643 1.379 10 8,490 86 443 443 1.379 10 8,490 86 443 443 1.379 10 8,490 86 443 10 8,490 86 86 10 8,490 86 86 10 86 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
y Share Capital - Faze Yalue Rs 10: per Share 444 57 where (actudar, Revaluation Resultance) is and clutured analysis of the set in	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Munibai - 400 021         Image: Ima	Place: Numbai Date: 10th August, 2022     Place: Numbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA     Particulars     period before tax and pior period 1 a period before tax and pior period 1 a period before Tax (after pior period 1 a period after Tax associates     norme for the period Comprising Pro- associates     norme for the period Other Comprehensive availuation Reserve as shown in the of previous year) re : Basic and Diuled (8)     ts were reviewed and recommended b are Regulation 33 of the SEBI (Using m made by the Company to Reserve I as dorseals include results of.: <u>Relationship</u> mitted Subsidiary Company nited <u>Associate Company</u>	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 51.34 298.82 (50.37) 10.88 	ement. The figurement. The figurement is the year to estated year to be stated year	d on behall Chairma D ULTS S. unless d s. unless d	st uppo nime           t of Board L           A           an and Manay           S           otherwise           Y	ise stz ear end 1.03.20 3.000 f 1.03.20 3.050 f 1.03.20 3.050 f 1.03.20 3.050 f 3.050
ly these Capital - Face Value Rs 100- per Share	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Natiman Pont, Munbai - 400 021 THACKER THACKER AND CO. LTR. S Sr. No. 1 Total Income from ope 2 Net Profit/Loss) for thi 3 Net Profit/Loss) for thi 4 Net Profit/Loss) for thi 5 Share of profit/(loss) of 6 Other comprehensive i 7 Total Comprehensive i 8 Andted Balance Sheet 10 Earning per Equity sha Notes: 1. The above financial result 2. The Limited Review undt Statutory Auditera. 3. Pursuant to an application license, RBI vide Order d 4. Consequent upon surrence 15 The donsolidated financial Fulsandards/Rule Order d 4. Consequent upon surrence 5 The donsolidated financial Reserve (accluding II 8. The above financial result 2. The Limited Review undt Statutory Auditera. 5 The donsolidated financial Fulsan Technologies L AMJ Land Holdings Lin Pudumjee Paper Produ 6. The figures for the prevo 7. The above is an extract o 33 of SEBI (Listing Obh) Exchange website (www.i	Place: Numbai Date: 10th Aaguet, 2022     Place: Numbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA     Particulars     Particulars     period (kefore tax and pior period is period after Tax (after pior period is period after tax as associates and Other Compresenses period after tax (after pior period is period after tax as abressid, the dated Novmber 30, 2018 (Order) ha ter of NBFC license, as afteread, the dAS) prescribed under Section 13: Relationship mited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes paion And Ochanary website	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 51.34 298.82 (50.37) 10.88 	ement. The figurement. The figurement is the year to estated year to be stated year	d on behall Chairma D ULTS S. unless d s. unless d	st uppo nime           t of Board L           A           an and Manay           S           otherwise           Y	ise stz ear end 1.03.20 3.000 f 1.03.20 3.050 f 1.03.20 3.050 f 1.03.20 3.050 f 3.050
uty Shee Capital - Face Value Re. 10:- per Shale 11:- 11:- 11:- 11:- 11:- 11:- 11:- 11:	105 Arcsdi, 155 NCPA Marg.         Nariman Pont, Munibal - 400 021         THACKER         THACKER         No.         1         Total Income from ope         2         Net Profit/Loss) for the         3         Net Profit/Loss) for the         3         Net Profit/Loss) for the         3         4         Net Profit/Loss) for the         5         Share of profit/Loss)         Audited Blance Sheet         10         Equity Share Capital         9         Reserves (excluding R         Audited Blance Sheet         10         Earning per Equity sha         Notes:         5         7         10         Earning Per Equity Sha         Notes:         5         7         10         Earning Per Produ         9         9         10         110         Earning per Equity sha         Notes:         5         7         10         10 <td>Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     period (before tax and prior period i period ater Tax     associates     associates     associates     associates and Other Comprehensive     valuation Reserve as shown in the of previous year)     re : Basic and Diluted (R)     ts were reviewed and recommended L     ts     were reviewed and recommended L     ser of NBFC lusting     made by the Company to Reserve 1     ata Allowember 30, 2018 (Order) ha     ther of NBFC lusting     made by the Company to Reserve 1     ata November 30, 2018 (Order) ha     the data Allowember 30, 2018 (Order) ha     the data Allowember 30, 2018 (Order) ha     the of Allowember 40, 2007 (Order) ha     the</td> <td>Ween audited injuries of the full</td> <td>Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hakere coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 51.34 298.82 (50.37) 10.88 </td> <td>ement. The figurement. The figurement is the year to exist a very set of the set of the</td> <td>d on behall Chairma</td> <td>st uppo mile           t of Board (X)           x      <t< td=""><td>ise statistics of the original of the original</td></t<></td>	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     period (before tax and prior period i period ater Tax     associates     associates     associates     associates and Other Comprehensive     valuation Reserve as shown in the of previous year)     re : Basic and Diluted (R)     ts were reviewed and recommended L     ts     were reviewed and recommended L     ser of NBFC lusting     made by the Company to Reserve 1     ata Allowember 30, 2018 (Order) ha     ther of NBFC lusting     made by the Company to Reserve 1     ata November 30, 2018 (Order) ha     the data Allowember 30, 2018 (Order) ha     the data Allowember 30, 2018 (Order) ha     the of Allowember 40, 2007 (Order) ha     the	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hakere coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 51.34 298.82 (50.37) 10.88 	ement. The figurement. The figurement is the year to exist a very set of the	d on behall Chairma	st uppo mile           t of Board (X)           x <t< td=""><td>ise statistics of the original of the original</td></t<>	ise statistics of the original
y Bate Capital - Face Value Rs 100- per Share were including Paralial - Race Value Rs 100- per Share exercited that paralial content and the second sec	105 Arcadia, 155 NDPA Marg. Natiman Pont, Munbai - 400 021 THACKER THACKER AND CO. LTR. S Sr. No. 1 Total Income from ope 2 Net Profit/Loss) for thi 3 Net Profit/Loss) for thi 4 Net Profit/Loss) for thi 5 Share of profit/(loss) of 6 Other comprehensive i 7 Total Comprehensive i 8 Andted Balance Sheet 10 Earning per Equity sha Notes: 1. The above financial result 2. The Limited Review undt Statutory Auditera. 3. Pursuant to an application license, RBI vide Order d 4. Consequent upon surrence 15 The donsolidated financial Fulsandards/Rule Order d 4. Consequent upon surrence 5 The donsolidated financial Reserve (accluding II 8. The above financial result 2. The Limited Review undt Statutory Auditera. 5 The donsolidated financial Fulsan Technologies L AMJ Land Holdings Lin Pudumjee Paper Produ 6. The figures for the prevo 7. The above is an extract o 33 of SEBI (Listing Obh) Exchange website (www.i	Place: Numbai Date: 10th Aaguet, 2022     Place: Numbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA     Particulars     Particulars     period (kefore tax and pior period is period after Tax (after pior period is period after tax as associates and Other Compresenses period after tax (after pior period is period after tax as abressid, the dated Novmber 30, 2018 (Order) ha ter of NBFC license, as afteread, the dAS) prescribed under Section 13: Relationship mited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes Limited Associate Company tes paion And Ochanary website	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrangenancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 10.48 298.82 (50.37) 299.79 10.88 32.19 aken on record b Requirements) Financial record b Registration as a repared in accord and other recogn form to current p h June, 2022 file full format of the 30.06.2022	ement. The figurement. The figurement is the year to exist a year to be stated account of its Non-Ba to BFI, with insee financia with the state france with thes	d on behall Chairma	si upto nime         i al Boardi ci           i al Administration         Al           si otherwi         Al           yanti         Al           si otherwi         Al           yanti         Al	r Regulation of the constant o
y Share Capital - Race Value Rs 10: per Share 444 57 yes Routolog Revealsation Reserves 1 yes Routolog Revealsation	105 Arcsdi, 155 NDPA Marg. Nariman Pont, Muniba - 400 021         Visitinan Pont, Muniba - 400 021         Sr.         No.         1       Total Income from opp         2       Net Profit/Loss) for thu         3       Net Profit/Loss) for thu         4       Net Profit/Loss) for thu         5       Share of profit/(Loss) for thu         6       Other comprehensive 1         7       Total Comprehensive 1         7       Total Comprehensive 1         8       Equity Share Capital         9       Reserves (excluding R.Ir         10       Earning per Equity sha         Notes:       1         1       The above financial result         2       The United Review undi         1       The donsolidated financial result         2       The donsolidated financial         1       Pudumjee Paper Produ         5       The donsolidated financial         Marie       Fujisan Technologies L         AMare <t< td=""><td>Place: Numbai Date: 10th Aaguet, 2022     Place: Numbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     rations     period (kefore tax and pior period is period after Tax associates and Other Comprehensiv associates and Other Comprehensive evaluation Reserve as shown in the of previous year) re : Basic and Diluted (₹)     st were reviewed and recommended b pr Regulation 33 of the SEBI (Listing made by the Company to Reserve [1] there of NFC license, as aforesaid, the nd AS) prescribed under Section 13 associate and Other Section 13 associate company the detailed format of Financial Res. pations And Disclosure Requirement the detailed of Company to Reserve [1] the detailed format of Financial Res. pations And Othersociate Company cts Limited Associate Company the detailed of Company to Reserve [1] the detailed of Company to Reserve [1] pations And Otherson Requirement the detailed of Company to Reserve [1] Particulars</td><td>Ween audited injuries of the full</td><td>Scheme of Arrangenancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 10.48 298.82 (50.37) 299.79 10.88 32.19 aken on record b Requirements) Financial record b Registration as a repared in accord and other recogn form to current p h June, 2022 file full format of the 30.06.2022</td><td>ement. The figurement. The figurement is the year to be stated yea</td><td>d on behall Chairma</td><td>si upto nime         i al Boardi ci           i al Administration         Al           si otherwi         Al           yanti         Al           si otherwi         Al           yanti         Al</td><td>r Regulación (N. 2007) r Regu</td></t<>	Place: Numbai Date: 10th Aaguet, 2022     Place: Numbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     rations     period (kefore tax and pior period is period after Tax associates and Other Comprehensiv associates and Other Comprehensive evaluation Reserve as shown in the of previous year) re : Basic and Diluted (₹)     st were reviewed and recommended b pr Regulation 33 of the SEBI (Listing made by the Company to Reserve [1] there of NFC license, as aforesaid, the nd AS) prescribed under Section 13 associate and Other Section 13 associate company the detailed format of Financial Res. pations And Disclosure Requirement the detailed of Company to Reserve [1] the detailed format of Financial Res. pations And Othersociate Company cts Limited Associate Company the detailed of Company to Reserve [1] the detailed of Company to Reserve [1] pations And Otherson Requirement the detailed of Company to Reserve [1] Particulars	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrangenancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 10.48 298.82 (50.37) 299.79 10.88 32.19 aken on record b Requirements) Financial record b Registration as a repared in accord and other recogn form to current p h June, 2022 file full format of the 30.06.2022	ement. The figurement. The figurement is the year to be stated yea	d on behall Chairma	si upto nime         i al Boardi ci           i al Administration         Al           si otherwi         Al           yanti         Al           si otherwi         Al           yanti         Al	r Regulación (N. 2007) r Regu
Shere Gapile - Face Value Rs. 10- per Share <u>144 st</u> se caudian R-Revisors) <u>11-36</u> <u>525</u> <u>175 gap</u> and divide annings per share (in Rs.) <u>13-36</u> <u>525</u> <u>175 gap</u> and divide annings per share (in Rs.) <u>13-36</u> <u>525</u> <u>175 gap</u> and divide annings per share (in Rs.) <u>13-36</u> <u>525</u> <u>175 gap</u> and divide annings per share (in Rs.) <u>13-36</u> <u>525</u> <u>175 gap</u> by more 24 for Restatement on account of analganation by more 22 the Audion have contred out a Limst Revew of these Result. Nove 22 the Audion have contred out a Limst Revew of these Result. In Revew of these Results. 15-25 <u>175 gap</u> <u>175</u>	105 Arcadia, 155 NCPA Marg. Nariman Pont, Munibai - 400 021         Image: Ima	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022     Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars     Particulars     apprind (before tax and prior period i p period before tax (after prior period i p period before tax and prior period i p period before tax (after prior period i p period before tax (after prior period i p period before tax (after prior period i p period tar tax associates neome for the period (Comprising Pro- associates and Other Comprehensive associates and Other Comprehensive associates and Other Comprehensive associates and Diuted (8)     ts were reviewed and recommended b per regulation 33 of the SEBI (Listing made by the Company to Reserve I ated November 30, 2018 (Order) has third Also prescribed under Section 133 als results include results of:- <u>Relationship</u> mitted <u>Associate Company</u> tited <u>Associate Company tota Limited Associate Company tota Limited Associate Company tota Limited <u>Associate Company</u> tota limormation are as under- <u>Particulars</u> peratations     the period before tax </u>	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrangenancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.hacker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 63.52 63.52 93.06.2022 (UNAUDITED) 10.88 - - - - - - - - - - - - -	ement. The figurement. The figurement is the very local set of ver	aures to the date figure date date date date date date date dat	si uppo mie           f of Board ( A)           an and Mana           si otherwill           y	r Regultices to a render to respect to respe
Bate C Squid: - Face Viale R5. 10: per Share       144 5         Seriouding Revealed Reserves       136       52         Seriouding Revealed Revealed Reserves       136       52         Seriouding Revealed	105 Arcsdi, 155 NCPA Marg.         Nariman Pont, Munibal - 400 021         THACKER         THACKER         No.         1         Total Income from ope         2 Net Profit/Loss) for thi         3 Net Profit/Loss) for thi         4 Net Profit/Loss) for thi         5 Share of profit/Loss)         7 Total Comprehensive I         7 Total Comprehensive I         10 Earning per Equity shar         Notes:         1. The above financial result         2. The Limited Review undires.         3. Pursuant to an application.         5 The donsolidated financial result         4. Consequent upon surrange Standards Rules. 2015 (I)         5 The donsolidated financial result         9 Rules. 2015 (I)	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022      PLACE : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars      rations     period the for tax and pilor period i period thefore tax and pilor period i period tare tax     associates     nocome for the period (Comprising Pro- associates and Other Comprehensive valuation Reserve as shown in the of pervlous year)     te : Basic and Diluted (t)     ts were reviewed and recommended b ar Regulation 33 of the SEBI (Listing n made by the Company to Reserve 1 ated November 30, 2012 (Order) has alsis results include reasels tor.     The detationship inited Subsidiary Company tas Limited Associate Company use period have been recast/regrouped (the detailed format of Financial Resecutai limotard by the Company's website cual information are as under:- <u>Particulars</u> operations     the period before tax the period before tax the period atter tax e income	Ween audited injuries of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NY LIN Arg, Fort, Mumbai - 4 wu.Insker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163 28 63.52 63.	ement. The figurement. The figurement is the year to be stated yea	ana bit has a second se	st uppo nime           t of Board (c)           x <t< td=""><td>ise stz ise sta ise ise ise ise ise ise ise ise ise ise</td></t<>	ise stz ise sta ise ise ise ise ise ise ise ise ise ise
ly blanc Capital - Face Value Rs. 10: per Share 444 sT     este (notuding Revealuation Resenses)         and diluted naminga per share in Rs.]         1.66         5.25         12.05         reveal construct Revealuation Resenses         reveal construct Revealuation Resenses         revealuation Revealuation Resenses         revealuation Revealuation Revealuation         revealuation Revealuation         revealuation	105 Arcsdi, 155 NCPA Marg.         Nariman Pont, Munibal - 400 021         ThackEr         THACKER         Sr.         No.         1       Total Income from ope         2       Net Profit/Loss) for the         3       Net Profit/Loss) for the         4       Net Profit/Loss) for the         5       Share of profit/Loss) for the         6       Other comprehensive in         7       Total Comprehensive in         9       Reserves (excluding Review undtholds)         9       Reserves (excluding Review undtholds)         10       Earling per Equity sha         Notes:       1.         1.       The above linancial result         1.       The above linancial result         2.       Pursuant to an application license. 2015 (I)         8.       Pursuant to an application license. 2015 (I)         9.       The above inancial result         1.       The above inancial result         2.       The donsolidated linancial result         1.       The above is an extract on 3 of SEB (Listing Obin Exchange website (www.i)         3.       The key standatone financial result         1.       The sthere for the previo <td< td=""><td>Place : Mumbai Date : 10th August, 2022      Place : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars      rations     period the for tax and pilor period i period thefore tax and pilor period i period tare tax     associates     nocome for the period (Comprising Pro- associates and Other Comprehensive valuation Reserve as shown in the of pervlous year)     te : Basic and Diluted (t)     ts were reviewed and recommended b ar Regulation 33 of the SEBI (Listing n made by the Company to Reserve 1 ated November 30, 2012 (Order) has alsis results include reasels tor.     The detationship inited Subsidiary Company tas Limited Associate Company use period have been recast/regrouped (the detailed format of Financial Resecutai limotard by the Company's website cual information are as under:- <u>Particulars</u> operations     the period before tax the period before tax the period atter tax e income</td><td>week audited figures of the full</td><td>Scheme of Arrange mancial year and re NYY LUN Arg, Fort, Mumbal - 4 wu,Inaker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 (53.54 298.62 (50.37) 299.79 10.68 againments) Fi Andrey Surrender / Registration as a reparted in accorr and other recogn form to current p h June, 2022 file full format of the 30.06.2022 (UNAUDITED) 108.03 59.29 47.93</td><td>ement. The figurement. The figurement is the very local set of ver</td><td>aures to the date figure date for a date figure date for a date figure date for a date f</td><td>Is upone           I of Board (I)         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           B         S otherwwy           Y         Y      Y         Y     &lt;</td><td>ise sta ar endo (1000)</td></td<>	Place : Mumbai Date : 10th August, 2022      PLACE : Mumbai TATEMENT OF CONSOLI FOR THE QUA Particulars      rations     period the for tax and pilor period i period thefore tax and pilor period i period tare tax     associates     nocome for the period (Comprising Pro- associates and Other Comprehensive valuation Reserve as shown in the of pervlous year)     te : Basic and Diluted (t)     ts were reviewed and recommended b ar Regulation 33 of the SEBI (Listing n made by the Company to Reserve 1 ated November 30, 2012 (Order) has alsis results include reasels tor.     The detationship inited Subsidiary Company tas Limited Associate Company use period have been recast/regrouped (the detailed format of Financial Resecutai limotard by the Company's website cual information are as under:- <u>Particulars</u> operations     the period before tax the period before tax the period atter tax e income	week audited figures of the full	Scheme of Arrange mancial year and re NYY LUN Arg, Fort, Mumbal - 4 wu,Inaker coin D FINANCI/ JUNE, 2022 (UNAUDITED) 163.28 63.52 63.52 63.52 (53.54 298.62 (50.37) 299.79 10.68 againments) Fi Andrey Surrender / Registration as a reparted in accorr and other recogn form to current p h June, 2022 file full format of the 30.06.2022 (UNAUDITED) 108.03 59.29 47.93	ement. The figurement. The figurement is the very local set of ver	aures to the date figure date for a date figure date for a date figure date for a date f	Is upone           I of Board (I)         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           B         S otherwwy           Y         Y      Y         Y     <	ise sta ar endo (1000)